

UNIVERSAL  
LIBRARY

**OU\_176116**

UNIVERSAL  
LIBRARY







प्रकीर्णक पुस्तकमाला २२ ( १ )

# हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली

भौतिक विज्ञान

डाक्टर निहालकरण सेठी, डी० एस०सी०

( अध्यापक भौतिक विज्ञान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय )

द्वारा संकलित

तथा

काशी नागरीप्रचारिणी सभा की पारिभाषिक

शब्द कमेटी द्वारा स्वीकृत



काशी नागरीप्रचारिणी सभा की ओर से

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

१९२६

Published by  
K. Mitra,  
at The Indian Press, Ltd.,  
Allahabad.

Printed by  
A. Bose,  
at The Indian Press, Ltd.,  
Benares-Branch.

## पारिभाषिक शब्द कमेटी

प्रोफेसर	कृष्णकुमार माथुर	बी० एस-सी० ( लंदन )
„	फूलदेवसहाय वर्मा	एम० एस-सी०
„	शुकदेव पांडेय	एम० एस-सी०
डाक्टर	निहालकरण सेठो	डी० एस-सी०
„	मुकुंदस्वरूप वर्मा	एम० बी०, बी० एस०
प्रोफेसर	नंदकुमार तिवारी	एम० एस-सी०
„	चंद्रबल	एम० एस-सी०
कविराज	प्रतापसिंह	
पंडित	कालीप्रसाद मिश्र	

---





**The Technical Terms Committee.**

**PROF. K. K. MATHUR, B.Sc. (London)**

„ **P. S. VERMA, M.Sc.**

„ **S. D. PANDE, M.Sc.**

**DR. N. K. SETHI, D.Sc.**

„ **M. S. VERMA, M.B., B.S.**

**PROF. N. K. TIWARI, M.Sc.**

„ **CHANDRABAL, M.Sc.**

**KAVIRAJ PRATAP SINGH**

**PANDIT KALI PRASAD MISRA**



प्रकीर्णक पुस्तक माला २२ (१)

# The Hindi Scientific Glossary

## PHYSICS

COMPILED BY  
**Dr. NIHALKARAN SETHI, D.Sc.,**  
PROFESSOR OF PHYSICS,  
*Benares Hindu University,*

AND

APPROVED BY  
**THE TECHNICAL TERMS COMMITTEE**  
OF  
*The Nagari-Pracharini Sabha.*



*Published by*  
**THE INDIAN PRESS LTD., ALLAHABAD**  
ON BEHALF OF THE NAGARI-PRACHARINI SABHA

1929

*Price 0-12-0*



## FOREWORD

In 1898 the Nagari-Pracharini Sabha of Benares undertook the preparation and publication of a Hindi Scientific Glossary comprising the technical words of Geography, Astronomy, Mathematics, Economics, Physics, Chemistry and Philosophy with their equivalents in Hindi. After a labour extending over eight years this work was completed with the collaboration and assistance of Mahamahopadhyaya Pandit Sudhakar Dwivedi, Pandit Mahavir Prasad Dwivedi, Babu Bhagwan Das, Pandit Madhava Rao Sapre and Babu Thakur Prasad. A Sub-Committee consisting of Prof. T. K. Gajjar, Prof. N. B. Ranade, Prof. A. C. Sanyal, Babu Bhagawati Sahaya, Pandit Vinayak Rao, Lala Khushi Ram and several others helped in the revision of this work. It consisted of 10,330 English and 16,269 Hindi words. It is a matter of great congratulation and satisfaction that this glossary has been largely utilised by writers on Scientific subjects, not only in Hindi but in Bengali, Marathi and Guzerati as well.

This glossary was published more than twenty years ago and although it has served well the purpose for which it was designed, it has now become out of date. During this period scientific literature has advanced enormously and a large number of new technical words have been coined and incorporated. Besides, this edition of the Hindi Scientific Glossary has now almost run out of stock, and, being the first attempt of its kind, could not be expected to be free from defects. It has therefore been decided

to undertake the preparation and publication of an enlarged and revised edition of this book. This task has been entrusted to a Committee consisting mainly of professors of the Science Department of the Benares Hindu University. This Committee began the work in right earnest. The collection, arrangement and coinage of each word was entrusted to people who have been actually teaching the subject concerned to the University classes for a number of years and who are at present engaged in writing suitable Hindi text-books on those subjects for the College classes. At the same time a Committee consisting of the representatives of all the Sciences was appointed to examine and criticise each word from various points of view and fix upon the proper Hindi word. Where a word has different meanings in different senses an attempt has been made to see that the Hindi equivalent conveys the exact sense of the English word. A Sanskrit scholar has been associated with the Committee to see that the Hindi word has been given its proper grammatical form. It is perhaps unnecessary to point out that no attempt has been made at puritanism. Words of foreign origin have been unhesitatingly accepted and even English words have been taken with the nearest approach of their pronunciation in Hindi.

The first part of this glossary consisting of the words of Physics is now being issued with a view to its being critically examined and revised by Scientists interested in the development of Scientific literature in the various modern languages of India. The Sabha aims at having, so far as possible, a common

Scientific Vocabulary for the whole of India and with this object in view it proposes to call together at a later stage a Conference of the representatives of the various important modern languages of India in order to arrive at a common understanding and to give a final form to each word. Any suggestion as to how this idea could be realised will be most welcome and helpful. In the meantime it is expected that Scientists representing the various modern languages of India will help the Sabha and the Editorial Committee by thoroughly and carefully considering these glossaries as they appear, and sending their criticisms. It is hoped that this criticism will be constructive in nature, for it is then that it can be helpful. A newly coined word is bound to appear strange and nothing is easier than to say that it is no good. What is really wanted is that better alternative words be suggested. But in doing so it should not be forgotten that very often the English language has a large number of words with very slight but necessary differences of meaning. These differences should be preserved. Perhaps the most important point to be kept in view is that the words chosen should be such as to be easily acceptable to all the provinces, so that one common Scientific Glossary for the whole or at least a greater part of India may be evolved. The Nagari-Pracharini Sabha trusts that its request will meet with a favourable response and that with the help and co-operation of scholars it will be able to realise the object it has in view.

---





## भौतिक परिभाषा

Aberration	...	अपेरेण
Aberration, chromatic	...	वर्णापेरेण
Aberration, spherical	...	गोलापेरेण
Abnormal	...	असामान्य
Absolute	...	शुद्ध
Absolute coefficient	...	निरपेक्ष गुणक
Absolute density	...	निरपेक्ष घनत्व
Absolute scale	...	परम क्रम
Absolute space	...	परम आकाश
Absolute temperature	...	परम तापक्रम
Absolute unit	...	परम एकांक
Absolute zero	...	परम शून्य
Absorb	...	शोषण करना
Absorbent	...	शोषक
Absorbing power	...	शोषकता
Absorption	...	शोषण
Absorption, selective	...	विशिष्ट शोषण
Accelerated (motion)	...	वर्द्धमान ( गति )
Accelerating (force)	...	वृद्धिकारक ( बल )
Acceleration	...	वेगवृद्धि
Acceptor circuit	...	स्वीकारक कुंडली
Accommodation	...	संविधान
Accommodation, power of	...	संविधान क्षमता
Accumulate	...	संचय करना
Accumulation	...	संचय
Accumulator	...	संचायक सैल
Accuracy	...	व्यर्थता

Accurate	..	यथार्थ
Accurately	...	यथार्थतः
Achromatic	...	अवर्णक
Achromatisation	...	अवर्णीकरण
Achromatism	...	अवर्णकता
Acoustic	...	शाब्दिक
Acoustics	...	शब्दविज्ञान
Actinic rays	...	क्रियाशील किरण
Actinometer	..	किरणक्रियामापक
Action	...	क्रिया
Action, local	...	स्थानीय क्रिया
Action, secondary	...	गौण क्रिया
Active	...	सक्रिय
Active (optically)	...	ध्रुवनघूर्णक
Activity	...	सक्रियता
Activity (optical)	...	ध्रुवनघूर्णत्व
Actual	...	वास्तविक
Adapter (Elec.)	...	अडाप्टर
Adhere	...	चिपकना
Adherence	...	चिपक
Adhesion	...	आसक्ति
Adiabatic (curve)	...	अतापन ( वक्र )
Adiabatically	...	अतापन विधि से
Adjust	...	समायोजन करना
Adjustable	...	समायोज्य
Adjusted	...	समायोजित
Adjustment (the act)	...	समायोजन
Adjustment (the condition)	...	समायोजना
Advantage, mechanical...	...	यांत्रिक लाभ
Aelotropic	...	विषमदिक्
Aelotropy	...	विषमदिक्त्व
Aerial	...	एरियल

Aeronautics	...	उड्डयन विद्या
Aeroplane	...	वायुयान
Aether	...	ईश्वर
After-image	...	अवशिष्ट विम्ब
Aggregate (noun)	...	योग
Aggregate (adj.)	...	संपूर्ण
Age (verb)	...	वयस्थापन करना
Aging	...	वयस्थापन
Agonic line	...	सून्यदिकपाती रेखा
Air-chamber	...	वायु कोष्ठ
Air-compressor	...	वायु संपीडक
Air-core transformer	...	वायु गर्भ परिणामक
Air-pump	...	वायु पंप
Air-ship	...	हवाई जहाज
Air-tight	...	वायुरोधक
Alloy	...	मिश्र धातु
Alpha particle	...	आलफा कण
Alpha ray	...	आलफा किरण
Alternate	...	एकांतर
Alternately	...	एकांतर क्रम से
Alternating current (A.C.)	...	प्रत्यावर्तक धारा ( प्र० धा० )
Alternator	...	प्रत्यावर्तक डायनमो
Altitude	...	उन्नतांश
Amalgam	...	पारद मिश्रण
Amalgamate	...	पारदरंजित करना, पारा चढ़ाना
Amalgamation	...	पारदरंजन
Amalgamated	...	पारदरंजित, पारा चढ़ाया हुआ
Amber	...	अंबर
Ammeter	...	अंपीयर मापक
Amorphous	...	अमणिभ
Ampere	...	अंपीयर
Amperemeter	...	अंपीयर मापक

Amplification	...	परिवर्धन
Amplify	...	परिवर्धित करना
Amplifying factor	...	परिवर्धन गुणक
Amplitude	...	कंपविस्तार, दोलनविस्तार
Analogy	...	उपमा
Analyse (general)	...	विश्लेषण करना
Analyse (light)	...	ध्रुवन विश्लेषण करना
Analyser	...	ध्रुवन विश्लेषक
Analysis	...	विश्लेषण
Anastigmatic	...	वैषम्यहीन
Anemometer	...	पवन वेग मापक
Anemometry	...	पवन वेग मिति
Aneroid barometer	...	निर्द्रव बैरोमीटर
Angle of contact	...	स्पर्श कोण
Angstrom	...	अंगस्ट्रॉम
Angular	...	कोणीय
Anion	...	धन-आयन
Anisotropic	...	विषम दिक्
Anneal	...	मृदु करना
Annealing (steel)	...	मृदुकरण
Annular	...	कुंडलाकार, वल
Annulus	...	कुंडली, वलय
Anode	...	ऐनोड
Antenna	...	एरियल
Anticathode	...	प्रति कैथोड
Anticlockwise	...	वामावर्त
Antinode	...	प्रस्पंद
Aperture	...	छिद्र, छेद, सुराख
Aphakia	...	लेन्सहीनता
Aplanatic	...	अनपेरक
Apparatus	...	उपकरण
Apparent	...	दृश्य

Apparent coefficient	...	व्यक्त गुणक
Apparent time	...	स्पष्ट काल
Applicable	...	संप्रयोज्य, लागू
Application (of a law)	...	संप्रयोग
Applied science	...	व्यावहारिक विज्ञान
Apply	...	संप्रयोजित करना, लगाना
Appreciable	...	अवगम्य, अनुपेक्षणीय
Approximate	...	सन्निकट
Approximately	...	लगभग
Approximation	...	सन्निकटीकरण
Aqueous	...	जलीय
Aqueous humour	...	तरल रस
Arc lamp	...	आर्क लंप
Area	...	क्षेत्र-फल
Arm (of a balance)	...	भुजा
Armature (of a dynamo)	...	आर्मेचर
Armature (of a magnet)	...	प्रयोजक
Arrangement	...	विन्यास, क्रम
Arrow (sign of direction)	...	बाण
Artesian well	...	उत्सृज्य कूप
Artificial	...	कृत्रिम
Artificial horizon	...	कृत्रिम चित्तिज
Asbestos	...	अस्बेस्टस
Ascension, right	...	विषुवांश
Aspirator	...	वायुचूषक
Assumption	...	कल्पना
Astatic (needle)	...	अनासक्त ( सूची )
Astigmatic	...	वैषम्ययुक्त, विषम दृष्टि
Astigmatism	...	वैषम्य, दृष्टिवैषम्य
Asymmetric	...	असममित
Asymmetry	...	असममिति
Athermanous	...	अपारतापक

Atmosphere	...	वायु मण्डल
Atmospheric electricity	...	वायु विद्युत
Atmospheric pressure	...	वायुदाब
Atom	...	परमाणु
Atomic	...	परमाणुक
Atomic heat	...	परमाणु ताप
Atomic number	...	परमाणु क्रमांक
Atomic theory	...	परमाणु सिद्धांत
Atomicity	...	परमाणुकता
Attraction	...	आकर्षण
Attraction, capillary	...	केशाकर्षण
Attraction, electric	...	वैद्युत आकर्षण
Attraction, gravitational	...	गुरुत्वाकर्षण
Attraction, magnetic	...	चुम्बकीय आकर्षण
Attraction, mutual	...	पारस्परिक आकर्षण
Audibility	...	कर्णगोचरता
Audible	...	कर्णगोचर
Aurora Australis	...	कुमेरुज्योति
Aurora Borealis	...	सुमेरुज्योति
Automatic	...	आत्मचालित
Automatically	...	स्वयमेव
Auto-transformer	...	स्वयंपरिणामक
Auxiliary	...	सहायक
Average	...	औसत
Axial	...	अक्षीय
Axis	...	अक्ष
Axis, neutral	...	उदासीन अक्ष
Axis, optical	...	प्रकाशाक्ष
Axis of co-ordinates	...	नियामकाक्ष
Axis of oscillation	...	द्रोलनाक्ष
Axis of rotation	...	घूर्णनाक्ष
Axis, principal	...	मुख्य-अक्ष

Axis, secondary . . .	...	गोणश्रृङ्ख
Axle . . .	...	धुरी
Azimuth . . .	...	दिगंश
Azimuthal . . .	...	दिगंशीय
Back electro motive force . . .	...	उत्क्रम विद्युद्वाहक बल
Back-lash (of screw) . . .	...	पिच्छट
Balance (verb) . . .	...	तुला
Balance . . .	...	समतुलित करना
Balance, hydrostatic . . .	...	उत्प्लावन तुला
Balance, spring . . .	...	कमानीदार काँटा
Balanced . . .	...	समतुलित
Balance-wheel . . .	...	दोलन चक्र
Balancing coil . . .	...	समतोलक वेष्टन
Ball . . .	...	गेंद, गोली
Ballistic . . .	...	प्राक्षेपिक
Ballistic galvanometer . . .	...	प्रक्षेप धारामापक
Balloon . . .	...	गुब्बारा
Band . . .	...	पट्टी
Band, (diffraction, or interference). . .	...	धारी
Band spectrum . . .	...	पट्टीदार वर्णपट
Bank of transformers . . .	...	परिणामक पुंज
Bar . . .	...	छड़
Bar (unit of pressure) . . .	...	बार
Bar magnet . . .	...	लंब चुंबक
Barograph . . .	...	वायुदाबलेखक
Barometer . . .	...	बैरोमीटर
Barometer, aneroid . . .	...	निर्द्रव बैरोमीटर
Barometer, cistern . . .	...	कुंडीय बैरोमीटर
Barometer, siphon . . .	...	साइफन बैरोमीटर
Baroscope . . .	...	वायुदाब दर्शक
Base (of a stand, etc.) . . .	...	आधार

Base-plate	...	आधार पट्ट
Basin (large)	...	नांद
Basin (small)	...	प्याला
Bass note	...	खरज सुर
Bath	...	उष्मक
Battery	...	बैटरी
Battery, secondary	...	संचायक बैटरी
Battery, storage	...	संचायक बैटरी
Battery, voltaic	...	वोल्टीय बैटरी
Bead	...	दाना
Beam	...	शहतीर
Beam (of a balance)	...	तुलादंड
Beam (of light)	...	किरणपुंज
Beam-compass	...	प्रलंब परकार
Bearing	...	धुराधार
Beat (sound)	...	स्वर-कंपन
Beating note	...	कंपित स्वर
Bed-plate	...	आधार पट्ट
Bell-jar	...	बेलजार
Bellows	...	धौंकनी
Belting	...	माल
Bend (verb)	...	मोड़ना
Bend (noun)	...	मोड़
Bending (force, etc.)	...	श्रवनामक
Beta particle	...	बीटाकण
Beta ray	...	बीटाकिरण
Bevel	...	कोर मारना
Bevelled	...	कोर मारा हुआ
Biaxial	...	युगलाक्ष
Biconcave	...	युगल नतोदर
Biconvex	...	युगल उच्चतोदर
Bifilar	...	द्विसूत्री



Bifocal	...	द्विनाभिक
Binaural	...	द्विकर्णी
Binding screw	...	संयोजक पेच
Binocular (telescope)	...	द्विनेत्री दूरबीन
Binocular, prismatic	...	प्रिज़ममय द्विनेत्री दूरबीन
Binocular microscope	...	द्विनेत्री सूक्ष्म दर्शक
Binocular vision	...	द्विनेत्रीयदर्शन
Bioscope	...	बायस्कोप
Biphase	...	द्विकला
Biplane	...	द्विपंखी वायुयान
Bipolar	...	द्विध्रुवीय
Biprism	...	द्विकप्रिज़म
Biquartz	...	युग्म स्फटिक
Bird-call	...	पिक-सुषिर
Blind-spot	...	अंध विंदु
Blow	...	फूँ कना
Blow-pipe	...	फुँ कनी
Block	...	गुटका
Blue	...	आसमानी
Blurred	...	अस्फुट, अस्पष्ट
Blurring	...	अस्फुटता, अस्पष्टता
Bob	...	लटकन
Bobbin	...	गट्टा
Body	...	वस्तु; मुख्य अंग पिंड
Boil	...	उबलना, उबालना, खौलना, खौलाना
Boiler	...	बायलर
Boiling point	...	क्वथनांक
Bolometer	...	बोलोमीटर
Bore (verb)	...	छेदना
Bore (noun)	...	रंध्र
Bottle	...	बोतल
Bottle, density—	...	घनत्व बोतल

Bottle, specific gravity...	घनत्व बोटल
Booster	... विभववर्द्धक
B. O. T. Unit (Elect)	... यूनिट
Bow	... धनुष
Bow (for violin)	.. गज
Bow (verb)	... गज से बजाना
Bowed	... गजवादित
Bow-compasses	... धनु परिकार
Bracket	... दीवा ञ्गीरी
Brake	... गतिरोधक
Branch	... शाखा
Brass	... पीतल
Break (noun)	... भंग
Break connection (verb)	संबंध तोड़ना
Breeze	... समीर
Breeze, land—	... धरासमीर
Breeze, sea—	... सिंधु समीर
Bridge	... सेतु
Bridge (music)	... जवारी (सितार की)
Bridge, double—	... युगल सेतु
Bridge, wheat-stone's—	व्हीट स्टोन-सेतु
Bridge, wire—	... तार सेतु
Bridge-wire	... सेतु तार
Bright	... प्रकाशमान, चमकीला
Bright	... दीप्त
Brightness	... चमक
Brilliance	... दमक
Brilliancy	... दमक
Brilliant	... देदीप्यमान
Brittle	... भंगुर
Brittleness	... भंगुरता
Broad-casting	... परिप्रेषण, परिकीर्णन

Brush	...	बुरुश
Brushes (polarised light)	...	बुरुश
Bugle	...	बिगुल
Bulb	...	बल्ब
Bulging	...	उभरा हुआ
Bulk	...	आयतन
Bulk-modulus	...	आयतन स्थापन गुणक
Bumping	...	फुदफुदाना
Bundle (of wires)	...	गट्टा, मुट्टा
Bundle of rays	...	रश्मिपुंज
Buoyancy	...	उत्प्लवन
Buoyant	...	प्लवनशील
Burner	...	ज्वालक
Burning glass	...	आतशी शीशा
Burning mirror	...	आतशी शीशा
Busbar	...	वितरण पट्टिका
Buzzer	...	गुंजक
Cable	...	केबल
Calculate	...	गणना करना
Calculated (value)	...	गणना-लब्ध (मूल्य)
Calculation	...	गणना
Calibration	...	अंशमापन
Calipers	...	कैलिपर
Calipers, inside	...	अभ्यंतर कैलिपर
Calipers, outside	...	बाह्य कैलिपर
Calorescence	...	ताप दीप्ति
Caloric (noun)	...	कलोरिक
Calorie	...	कलारी
Calorie, major	...	दीर्घ कलारी
Calorie, mean	...	मध्यम कलारी
Calorie, minor	...	लघु कलारी
Calorific	...	तापजनक

Calorimeter	...	कलारी मापक
Calorimeter, bomb	...	बम कलारी मापक
Calorimetry	...	कलारी मापक
Camera lucida	...	दृष्ट-चित्रक
Camera obscura	...	पटसिप्त-चित्रक
Camera, photographic	...	फोटो का कैमरा
Camera, pinhole	...	सूचीछिद्र कैमरा
Candle-power	...	बत्तीबल
Capacitance	...	समावेशन
Capacity	...	समावेशन
Capacity, thermal	...	ताप समावेशन
Capillarity	...	पृष्ठ वितति
Capillary tube	...	केशनली
Capillary attraction	...	केशकर्षण
Capsule	...	कूपी
Capsule manometric	...	दाबदर्शक कूपी
Card board	...	गत्ता
Carrier	...	वाहन
Carrier wave	...	वाहक तरंग
Case (of an instrument)	...	पेटी, बक्स, डिब्बा, संरूक, घर
Cathetometer	...	ऊर्ध्वमापक
Cathode	...	कैथोड
Cathode rays	...	कैथोडकिरण
Cation	...	ऋणआयन
Catoptric method	...	परावर्त्तनविधि
Catoptric telescope	...	परावर्त्तक दूरबीन
Caustic (curve)	...	किरणस्पृष्ट ( वक्र )
Cavity	...	कोटर, गुहा
Celestial sphere	...	खगोल
Cell	...	सैल
Cell, photoelectric	...	प्रकाशवैद्युत सैल
Cell, primary	...	प्राथमिक सैल

Cell, secondary	...	संचायक सैल
Cell, standard	...	प्रमाण सैल
Celluloid	...	सैल्युलायड
Cement	...	सीमेंट
Centigrade	...	शतांश, सेंटीग्रेड
Centigram	...	सेंटीग्राम
Centimeter	...	सेंटीमीटर ( सम० )
Central	...	केंद्रिक
Centre	...	केंद्र
Centre of curvature	...	अनुवृत्तकेंद्र; वक्रताकेंद्र
Centre, optical	...	प्रकाशकेंद्र
Centre of gravity	...	गुरुत्वकेंद्र
Centre of inertia	...	जड़त्वकेंद्र
Centre of oscillation	...	दोलनकेंद्र
Centre of pressure	...	दाबकेंद्र
Centric (ray)	...	केंद्रगत ( किरण )
Centrifugal	...	केंद्रापसारी
Centrifuge	...	केंद्रापसारक
Centripetal	...	केंद्राभिसारी
Chain	...	शृंखला
Chamois leather	...	शमाय का चमड़ा
Change	...	परिवर्तन
Change of state	...	अवस्था परिवर्तन
Character (of sound)	...	रूप
Character	...	लक्षण
Characteristic	...	लक्षण
Characteristic (curve)	...	लक्षक ( वक्र )
Charge (noun)	...	आवेश
Charge (verb)	...	विद्युन्मय करना, आविष्ट करना
Charged	...	आविष्ट
Chart	...	सारिणी, लेखाचित्र
Chimney	...	चिमनी

Choke	...	प्रतिष्टंभी
Choking coil	...	प्रतिष्टंभवेष्टन
Chord (music)	...	स्वरसंघात
Chord, major	...	दीर्घसंघात
Chord, minor	...	लघुसंघात
Chromatic	...	वार्णिक
Chromosphere	...	वर्णमंडल
Chronograph	...	काललेखक
Chronometer	...	कालमापक
Churning	...	मथना
Cinema	...	सिनेमा
Cinematograph	...	सिनेमाटोग्राफ, सिनेमाचित्रदर्शक
Circuit	...	चक्र, कुंडली
Circuit, branch—	...	शाखाकुंडली
Circuit, closed—	...	पिहितकुंडली
Circuit, external—	...	बहिःकुंडली
Circuit, internal—	...	श्रंतःकुंडली
Circuit, open—	...	मुक्त-कुंडली
Circuit, shunt—	...	पाश्वर्ककुंडली
Circuit-breaker	...	कुंडली-मोचक
Circular	...	वृत्ताकार, वर्तुल, वृत्तीय
Circumference	...	परिधि
Cirro-cumulus cloud	...	कुंतल कुंजमेघ
Cirro-stratus cloud	...	कुंतल स्तरितमेघ
Cirrus cloud	...	कुंतलमेघ
Clamp	...	कीलक
Classification	...	वर्गीकरण
Classify	...	वर्गीकरण करना
Cleavage	...	विदलन
Climate	...	आबहवा
Clip	...	क्लिप
Clock	...	घड़ी

Clockwise	...	दक्षिणावर्त्त
Clockwork	...	घटीयंत्र
Closed figure	...	पिहित आकृति
Cloud	...	मेघ
Cloud, cirro-cumulus	...	कुंतल कुंज मेघ
Cloud, cirro-stratus	...	कुंतलस्तरित
Cloud, cirrus	...	कुंतलमेघ
Cloud, cumulus	...	कुंजमेघ
Cloud, cumulo-stratus	...	कुंजस्तरित मेघ
Cloud, nimbus	...	वर्षुक मेघ
Cloud, stratus	...	स्तरित मेघ
Coagulate	...	स्कंधित होना या करना
Coagulation	...	स्कंधीकरण
Co-axial	...	समाक्षीय
Coefficient	...	गुणक
Coercive force	...	निग्रहबल
Coercivity	...	निग्रहत्व
Coexist	...	सहवर्त्ती होना
Co-herer	...	कोहियरर
Cohesion	...	संसक्ति
Cohesive	...	सांसक्तिक
Coil	...	वेष्टन
Coil (verb)	...	लपेटना
Coil, induction—	...	उपपादन वेष्टन
Coil, medical—	...	चिकित्सावेष्टन
Coil, primary—	...	प्राथमिकवेष्टन
Coil, secondary—	...	द्वैतीयिकवेष्टन
Coincide	...	सन्निपतित होना
Coincidence	...	सन्निपतन
Coincidences, method of—	...	सन्निपतनविधि
Coincident	...	सन्निपाती
Cold (noun)	...	शीत

Cold (adj.)	...	शीतल, ठंडा
Collar	...	कालर
Collimate	...	संधानित करना
Collimation	...	संधान
Collimation, line of —	...	संधानरेखा
Collimator	...	संधानकारक
Collision	...	टकर, संघात
Collodion	...	कलोडियन
Colour	...	वर्ण, रंग
Colour-blindness	...	वर्णान्धता
Colour, complementary...	...	पूरकवर्ण
Colour, primary—	...	मौलिकवर्ण
Colour, subjective—	...	दृष्टवर्ण
Coloured	...	रंगीन
Column	...	स्तंभ
Combination	...	संयोग
Combination tone	...	समवायसुर
Common	...	साधारण
Common to both	...	उभयनिष्ठ
Common to all	...	सर्वनिष्ठ
Commutation	...	दिशापरिवर्त्तन
Commutator	...	दिशापरिवर्त्तक
Comparator	...	दैर्घ्यतुलनाकारक
Compass	...	दिक्सूचक
Compass, beam—	...	प्रलंब परकार
Compass, mariner's—	...	जहाज़ी दिक्सूचक
Compass, prismatic—	...	प्रिज़्ममय दिक्सूचक
Compass-card	...	दिक्सूचक पट्ट
Compasses, a pair of—	...	परकार
Compensated	...	प्रतिकारित
Compensating	...	प्रतीकारक
Compensation	...	प्रतीकार



Complete circuit	...	पूर्णकुंडली
Complex	...	जटिल
Component	...	अवयव
Composition (of forces)...		(बल) संयोजन
Compound engine	...	यौगिक इंजन
Compound microscope	...	यौगिक सूक्ष्मदर्शक
Compound wound (dynamo).		मिश्रवेष्टित ( डायनमो )
Compress	...	दबाना
Compressibility	...	संपीड्यता
Compressible	...	संपीड्य
Compression	...	संपीडन
Compressor	...	संपीडक
Concave	...	नतोदर
Concave, double—	...	युगलनतोदर
Concave, plano—	...	समनतोदर
Concave, convex—	...	उन्नतनतोदर
Concavo-convex	...	नतोन्नतोदर
Concentrate	...	समाहरण करना, समाहृत करना
Concentration	...	समाहरण
Concentric	...	एककेंद्रक
Concord (music)	...	स्वरसाम्य
Condensation	...	द्रवीभवन
Condensation (of wave)	...	सघनता
Condense	...	द्रवीभूत होना
Condenser	...	शीतक
Condenser (lens)	...	संग्राहक
Condenser (electric)	...	इं हक
Condenser, substage	...	अधोमंच संग्राहक
Condensing electroscope		इं हक विद्युद्दर्शक
Conduct (verb)	...	चालन करना
Conductance	...	चालकता

Conducting power	...	चालनक्षमता
Conduction	...	चालन
Conductivity	...	चालकता
Conductor	...	चालक
Conductor, bad	...	कुचालक
Conductor, good	...	सुचालक
Cone	...	शंकु
Cone of rays	...	किरणशंकु
Conical	...	शंकाकार
Conical pendulum	...	शंकुदोलक
Conic section	...	शंकुपरिच्छेद
Configuration	...	विन्यास, आकृति
Confusion, circle of least		अल्पतम व्यस्तता का वृत्त
Congeval	...	जमना
Conjugate	...	अनुबद्ध
Conjugate arms	...	अनुबद्धभुजाएँ
Conjugate foci	...	अनुबद्धनाभि
Conjugate points	...	अनुबद्धबिंदु
Conjugate relationship		अनुबंधीसंबंध
Connect	...	मिलाना, जोड़ना, सम्बद्ध करना, संयोजित करना
Connected	....	संबद्ध
Connect in parallel	...	समांतर संबद्ध
Connected in multiple arc		मिश्रसंबद्ध
Connected in series	...	श्रेणीसंबद्ध
Connecting (adj.)	...	संयोजक, संबंधक
Connection	...	संबंध
Connector	...	संयोजक
Consecutive	...	क्रमागत
Consecutively	...	क्रम से, निरन्तरतः
Consequent poles	...	उपभ्रुव
Conservation	....	नित्यता, विनाशिता, ध्रौढ्य

Conservative system	...	अविनाशी समूह
Consonance	...	संवादन
Consonant (music)	...	संवादी
Constant (adj.)	...	स्थायी, नियत, स्थिर, अचल
Constant (noun)	...	स्थिरांक, अचलांक
Constant (of a galvanometer).		चेतनांक
Constant (of an instrument).		निर्देशांक
Constant, chemical (of an element).		रसायनांक
Constant, solar	...	सूर्य-तापांक
Constellation	...	नक्षत्र
Constituent	...	अवयव
Constitution	...	संगठन
Constriction	...	संकिरण
Construction	...	निर्माण
Contact	...	स्पर्श
Contact-breaker	...	स्पर्शभंजक
Contiguity	...	संलग्नता
Contiguous	...	संलग्न
Continuity	...	सातत्य, अविरतता
Continuity of state	...	अवस्था सातत्य
Continuous	...	अविरत
Continually	...	लगातार
Continuously	...	लगातार
Contract	...	संकुचित होना
Contractile	...	संकोचशील
Contractility	...	संकोचशीलता
Contraction	...	संकोच
Contrary	...	विपरीत
Contrivance	...	योजना, प्रयुक्ति

Control (noun)	...	नियंत्रण
Control (verb)	...	नियंत्रित करना
Controlling magnet	...	नियंत्रक चुंबक
Convection	...	वाहन
Converge	...	संसृत होना
Convergence	...	संसरण
Convergent	...	संसृत
Conversion	...	परिवर्त्तन
Conversion factor	...	परिवर्त्तन गुणक
Convertor	...	परिवर्त्तक
Convex	...	उन्नतोदर
Convex, double—	...	युगलुन्नतोदर
Convex, plano—	...	समोन्नतोदर
Convex, concavo—	...	नतोन्नतोदर
Convexo-concave	...	उन्नतनतोदर
Cool	...	शीतल
Cooling	...	शीतलीकरण, शीतलीभवन
Cooling curve	...	शीतलीभवनवक्र
Cooling, law of—	...	शीतलीभवन का नियम
Cooling, method of—	...	शीतलीकरणविधि
Cooling, rate of—	...	शीतलीभवन का वेग
Cooling, super—	...	अतिशीतलीकरण, अतिशीतलीभवन
Cooled, super—	...	अतिशीतलीकृत, अतिशीतलीभूत
Co-ordinates	...	नियामक
Co-ordinate axis	...	नियामकाक्ष
Core	...	गर्भ
Cork	...	काग
Cork-borer	...	कागच्छेदक
Cork-presser	...	कागपीडक
Cornea	...	कनीजिका
Corona	...	किरीट
Corpuscle	...	कणिका

Corpuscular theory	...	कणिकासिद्धांत
Correct (adj.)	...	यथार्थ
Corrected	...	संशोधित
Correction	...	संशोधन
Correspond with	...	संगत होना
Correspondence	...	सांगत्य
Corresponding	...	संगत
Corresponding states	...	संगत अवस्थाएँ
Coulomb	...	कूलंब
Counter-act	...	विरोध करना
Counter-balance	...	प्रतितुलित करना
Couple (of forces)	...	बलयुग्म
Couple (verb)	...	अनुयोजन करना
Coupling	...	अनुयोग, अनुयोजन
Coupling, tight—	...	गाढ़ा अनुयोग
Coupling, loose—	...	ढीला अनुयोग
Cover	...	आवरण
Cover-glass	...	आवरण काँच
Crack	...	दरार
Crane	...	क्रेन
Crank	...	क्रैंक
Creeping	...	विसर्पी; विसर्पण
Crest (of wave)	...	तरंगशीर्ष
Critical	...	चरम
Critical angle	...	चरमकोण
Critical point	...	चरमबिन्दु
Cross (noun) (polarised light).		स्वस्तिका
Cross (verb)	...	प्रतिकूल करना
Crossed Nicols	...	प्रतिकूल निकल
Crossed position	...	प्रतिकूल स्थिति
Cross-wire	...	स्वस्तिका सूत्र

Crown glass	...	क्राउन कांच
Crucible	...	मूषा, बड़िया
Crude	...	असंस्कृत
Crumble	...	चूरचूर होना
Crust	...	पपड़ी
Cryophorus	...	क्रायो फोरस
Crystal	...	मणिभ
Crystal, active	...	ध्रुवनभ्रामक मणिभ
Crystal, biaxial	...	युगलाक्ष
Crystal, compound	...	संयुक्त मणिभ
Crystal, negative	...	ऋण मणिभ
Crystal, positive	...	धन मणिभ
Crystal, uniaxial	...	एकाक्ष मणिभ
Crystalline	...	मणिभ
Crystallise	...	मणिभ बनाना या बनना
Crystallisation	...	मणिभकरण
Crystalline lens (of the eye).		नेत्रकांच
Cube (figure and third power).		घन
Cubic	...	घनाकार
Cubic centimetre	...	घन सेंटीमीटर
Current	...	धारा
Current, alternating (A.C.)		प्रत्यावर्तक धारा ( प्र० धा० )
Current, constant	...	स्थायी धारा
Current, continuous	...	अविच्छिन्न धारा
Current, direct (D.C.)	...	सरल धारा
Current, eddy	...	चक्र धारा ( स० धा० )
Current Focoult	...	फूको-धारा
Current, induced	...	उपपादित धारा
Current, inverse	...	विमुख धारा
Current, intermittent	...	विच्छिन्न धारा, उपरोधित धारा

Current, oscillatory	...	दोलित धारा
Current, unidirectional	...	सरल धारा
Current, varying	...	अस्थायी धारा
Current, virtual	...	फलित धारा
Curvature	...	वक्रता
Curvature, centre of—	...	अनुवृत्त केन्द्र, वक्रता केन्द्र
Curvature, circle of—	...	अनुवृत्त
Curve	...	वक्र
Curved	...	वक्र
Curvilinear	...	वक्र
Cut out	...	वियोजक
Cycle	...	चक्र
Cycle, direct	...	अनुलोम चक्र
Cycle, reverse	...	विलोम चक्र
Cycle, to traverse a—	...	चक्र पर पर्यटन करना
Cyclical operation	...	चक्रीय-क्रिया
Cylinder	...	बेलन
Cylinder (of gas)	...	सिलिंडर
Cylinder, measuring	...	मापक जार
Cylinder, graduated	...	अंशांकित जार
Cylindrical	...	बेलनाकार
Cylindrical lens	...	बेलनतल लैस
Cymbals	...	झांझ
Damped motion	...	क्रमोन्गति
Damping	...	क्रमोन्ता
Dark (fringe)	...	अदीप्त
Data	...	निर्दिष्ट
Dead-beat	...	स्त्रिप्त-स्तंभी
Decameter	...	डेकामीटर
Decagram	...	डेकाग्राम
Decigram	...	डेसीग्राम
Decimeter	...	डेसीमीटर

Declination	...	दिक्पात
Declination-compass	...	दिक्पात मापक
Decrement	...	अपचय
Decrement, logarithmic	...	लघुगणकीय अपचय
Definition	...	परिभाषा
Definition (of image)	...	स्फुटता
Deflection	...	विक्षेप
Degradation	...	अपकर्ष
Degree (angle)	...	अंश
Degree of freedom	...	स्वतंत्रता की संख्या
Degree (of hotness, etc.)	...	कोटि
Degree (of temperature)	...	डिग्री
Delicate	...	सूक्ष्मग्राही, नाजुक
Delta rays	...	डेल्टा किरण
Demagnetisation	...	चुम्बकत्वहरण
Demagnetise	...	चुम्बकत्वहीन करना
Demagnetising	...	चुम्बकत्वहारी
Demonstrate	...	निदर्शित करना
Demonstration	...	निदर्शन
Demonstrator	...	निदर्शक
Demy	...	डेमी
Dense	...	सघन
Dense, optically	...	प्रकाश सघन
Densely	...	सघनता पूर्वक, ठसाठस
Density	...	घनत्व
Density, absolute	...	निरपेक्ष घनत्व
Density, high	...	उच्च घनत्व
Density, low	...	अल्प घनत्व
Density, relative	...	आपेक्षिक घनत्व
Density, bottle	...	घनत्व बोतल
Depolarisation (of cell)	...	ध्रुव-अनाच्छादन
Depolarise	...	ध्रुव-अनाच्छादन करना



Depolariser (of cell) ...	ध्रुव-अनाच्छेदक
Depress ...	अवनमन करना, अवनत करना
Depression ...	अवनमन
Derived units ...	व्युत्पन्न एकांक
Design ...	योजना
Detect ...	पता लगाना
Determination ...	निर्धारण
Determine ...	निर्धारित करना
Develope (photography) ...	विकाशन करना
Developer (photography)...	विकाशक
Deviatè ...	विचलित होना
Deviation ...	विचलन
Deviation, minimum ...	अल्पतम विचलन
Deviation, to suffer minimum—	अल्पतम विचलित होना
Device ...	युक्ति
Devitrification ...	कांच्यहीनता
Devitrified ...	कांच्यहीन
Dew ...	श्रोस
Dew-point ...	श्रोसांक
Dextro-rotatory ...	दक्षिणावर्त्तक
Diagonal scale ...	कर्ण-स्केल
Diagram ...	मर्म-चित्र
Diagrammatic ...	मर्मचित्रित
Dial ...	डायल
Dial pattern (resistance box).	घट्टुपम
Dialyse ...	पारपृथक् करना
Dialyser ...	पारपृथक्-कारक
Dialysis ...	पारपृथक्-करण
Diamagnetic ...	प्रतिचुम्बकीय
Diamagnetism ...	प्रतिचुम्बकत्व

Diameter	...	व्यास
Diametrically opposite...		अत्यंत प्रतिकूल, बिलकुल उलटा
Diaphragm (sound)	...	तनुपट
Diaphragm (light)	...	छिद्रपट
Diaphragm, iris	...	तारापट
Diathermancy	...	पारतापकता
Diathermanous	...	पारतापक
Dichroism	...	द्विवर्णत्व
Dichromatic	...	द्विवर्णक
Dielectric	...	वैद्युतांगण
Dielectric constant	...	वेद्युतांगण श्रंक
Dielectric current	...	वैद्युतांगण धारा
Difference	...	अंतर, पार्थक्य, भेद
Difference, path—	....	मार्गान्तर
Differential thermo- meter.		भेददर्शक तापमापक
Differential galvanometer		धारामापक भेददर्शक
Differential pulley	...	अन्तरीय घिरणी
Differential tone	...	वियोजित सुर
Diffract	...	विवर्तित करना
Diffracted	...	विवर्तित
Diffraction	...	विवर्तन
Diffraction grating	..	विवर्तन ग्रेटिंग
Diffuse	...	व्याप्त होना
Diffusion	...	व्यापन
Diffusion pump	...	व्यापन पम्प
Digester	...	पाचक यंत्र
Dilatation	...	प्रसार
Dilatometer	...	द्रवप्रसारमापक
Dilute (adj.)	...	तनु
Dim	...	धुंधला, मंद, धीमा
Dimness	...	धुंधलापन, मंदता

Dimensions (measurements)	परिमाण
Dimensions (of an expression).	घात
Dimensions (of space) ...	विस्तार
Dimensional equation ..	घातीय समीकरण
Dimensional, four— ...	चतुर्धा विस्तृत
Dimensional, three— ...	त्रिधाविस्तृत
Dioptré	डायोप्टर
Dioptric method	वर्तनविधि
Dioptric telescope	वर्तन दूरवीन
Dip	अवपात
Dip-circle	अवपातमापक
Direct method	ऋजु विधि
Direct current (D. C.)	सरलधारा ( स० घा० )
Direct vision spectroscopé.	समन्वदृष्टि वर्णपटदर्शक
Direction	दिशा
Disc	मंडल
Discharge (noun)	विसर्ग
Discharge (verb)	विसर्जित करना
Discharge, brush	बुरुश-विसर्ग
Discharge, oscillatory	दोलित्त विसर्ग
Discharge, spark	स्फुल्लिंग विसर्ग
Discharge, slow	मन्थर विसर्ग
Discharger	विसर्जक
Discharging (adj.)	विसर्जक
Discontinuity	विरतता
Discontinuous	विरत
Discord (music)	बेसुगपन
Discordant	बेसुरा
Discover	आविष्कार करना
Discoverer	आविष्कारक

Discovery	...	आविष्कार
Disintegration	...	खंडन
Dispersion	...	वर्णविश्लेषण
Dispersion, anomalous	...	असाधारण वर्णविश्लेषण
Dispersion, normal	...	साधारण वर्णविश्लेषण
Dispersive power	...	वर्णविश्लेषकता
Displace	...	स्थानापन्न होना
Displace (dynamics)	...	स्थानांतरित करना
Displacement	...	स्थानापत्ति
Displacement (dynamics)	...	स्थानांतर
Dissipate	...	क्षयकरना
Dissipation	...	क्षय
Dissipative system	...	क्षयी व्यवस्था
Dissolve	...	घुलना घोलना, विलीन करना, विलीन होना
Dissolved	...	घुला हुआ
Dissonance	...	विस्वरता, बेसुरापन
Dissonant	...	बेसुरा,
Distance	...	दूरी
Distil	...	छाव करना, क्षवित होना
Distillate	...	क्षव
Distillation	...	छावण
Distilled (adj.)	...	क्षवित
Distinguish between	...	भेद बतलाना
Distinguishing (adj)	...	विभेदक
Distorted	...	विकृत
Distortion	...	विकृति
Distributed	...	वितीर्ण
Distribution	...	वितरण
Diverge	...	अपसृत होना, फैलना
Divergence	...	अपसरण
Divergent	...	अपसृत

Diving bell	...	अवगाहन कोष्ठ
Divisibility	...	विभाज्यत्व
Divisible	...	विभाज्य
Division (graduation)	...	विभाग रेखा
Division (of time, etc.)	...	विभाग
Dominant (music)	...	पंचम
Double concave	...	युगल नतोदर
Double convex	...	युगल उन्नतोदर
Double refraction	...	द्विवर्त्तन
Double weighing	...	द्विस्तोलन
Doubly refracting	...	द्विवर्त्तक
Doublet	...	द्विक
Drawing (noun)	...	आलेखन कला, आलेख्य
Drawing board	...	आलेख्य पट्ट
Drawing pen	...	आलेख्य कलम
Drill	...	बरमी
Drop	...	बूँद
Drop	...	पतन
Drop (verb)	...	गिरना, गिराना
Drum	...	बेलन
Drum of ear	...	कर्णपट
Drum (music)	...	ढोल, आनद्ध वाद्य
Drum, rotating	...	परिभ्रामक बेलन
Ductile	...	तन्य
Ductility	...	तन्यता
Duration	...	अवधि
Dust	...	सूक्ष्मचूर्ण
Dust-storm	...	आंधी
Dying (of sound)	...	लोप होना
Dynamic	...	गत्यात्मक
Dynamical	...	गत्यात्मक
Dynamics	...	गतिविज्ञान

Dynamo,	...	डायनमो
Dynomometer	...	बलमापक
Dyne	...	डाइन
Ear-drum	...	कर्णपट
Earth	...	पृथ्वी
Earth inductor	...	पृथिव्योपपादक
Ebonite	...	एबोनाइट
Ebullition	...	उबाल, कथन
Ebullioscope	...	कथनांक मापक
Eccentric	...	विकेन्द्र
Eccentricity	...	विकेन्द्रता
Echelon	...	सोपानी; ऐशेलन
Echo	...	प्रतिध्वनि
Echo, di-syllabic	...	द्वि-अक्षरी प्रतिध्वनि
Echo, monosyllabic	...	एकाक्षरी प्रतिध्वनि
Echo, polysyllabic	...	वह्वक्षरी प्रतिध्वनि
Eclipse	...	ग्रहण
Eclipse, annular	...	चलयाकार ग्रहण
Eclipse, partial	...	अपूर्ण ग्रहण
Eclipse, total	...	पूर्ण ग्रहण
Ecliptic	...	क्रान्ति वृत्त
Eddy current	...	चक्रधारा
Edge of a knife	...	असिकोर
Edge (of prism, etc.)	...	कोर
Effect	...	प्रभाव, असर
Effect ( <i>e.g.</i> , Zeeman effect)	...	प्रभाव (यथा ज़ीमानी प्रभाव )
Effective	...	प्रभावकारी
Efficiency	...	दक्षता
Efficient	...	दक्ष
Efflux	...	प्रस्रव
Effusion	...	अभिस्यन्दन
Elastic	...	स्थितिस्थापक

Elastic fatigue	...	स्थितिस्थापक श्रान्ति
Elastic limit	...	स्थितिस्थायकत्व सीमा
Elasticity	...	स्थितिस्थापकता
Elasticity, modulus of--		स्थितिस्थायकत्व गुणक
Electric	...	वैद्युत
Electric arc	...	वैद्युत आर्क
Electric machine	...	वैद्युत यंत्र
Electrical	...	वैद्युत
Electrician	...	विद्युद्देत्ता
Electricity	...	विद्युत्
Electricity, atmospheric		वायुविद्युत्
Electricity, dynamical	...	चलविद्युत्
Electricity, frictional	...	घर्षणविद्युत्
Electricity, negative	...	ऋण-विद्युत्
Electricity, positive	...	धन-विद्युत्
Electricity, statical	...	स्थिर-विद्युत्
Electricity, voltaic	...	वोल्टीय विद्युत्
Electricity, vitreous	...	काच विद्युत्
Electrification	...	आवेशण
Electrify	...	आविष्ट करना, विद्युन्मय करना
Electro-chemistry	...	विद्युत् रसायन
Electro-chemical	...	विद्युत् रासायनिक
Electro-dynamic	...	चल वैद्युत
Electro-dynamics	...	विद्युत् गति विज्ञान
Electro-dynamometer	...	विद्युच्छक्तिमापक
Electro-engraving	...	विद्युत् उरकीर्णन
Electro-kinetics	...	विद्युद्गतिविज्ञान
Electrolysis	...	विद्युत् विच्छेदन
Electrolyte	...	विद्युत्-विच्छेद्य
Electrolyze	...	विद्युत् विच्छेदन करना
Electro-magnet	...	विद्युत्-सुम्बक
Electro-magnetic	...	विद्युत्-सुम्बकीय

Electro-magnetism	...	विद्युत्-चुम्बकत्व
Electro-metallurgy	...	विद्युत् धातुशोधन
Electro-meter	...	विद्युन्मापक
Electrometer, capillary	...	कैशिक विद्युन्मापक
Electromotive-force (E. M. F.).	(E.	विद्युद्वाहक बल ( वि० वा० ब० )
Electro-negative	...	विद्युत् ऋणीय
Electropathy	...	विद्युत् चिकित्सा
Electrophorus	...	इलैक्ट्रोफोरस
Electroplate	...	विद्युत् रंजित करना, मुलम्मा करना
Electro-positive	...	विद्युत् धनीय
Electroscope	...	विद्युद्दर्शक
Electroscope, condensing	...	हं हक विद्युद्दर्शक
Electroscope, gold-leaf	...	स्वर्णपत्र विद्युद्दर्शक
Electrostatics	...	विद्युत् स्थितिविज्ञान
Electro-typing	...	विद्युन्मुद्रण
Electrode	...	विद्युद्धार
Electron	...	इलैक्ट्रॉन
Electronic	...	इलैक्ट्रॉनिक
Element	...	तत्त्व
Element, half-period	...	अर्धावर्तन खंड
Elementary	...	मूल
Ellipse	...	दीर्घवृत्त
Ellipsoid	...	दीर्घवृत्तज
Ellipsoidal	...	दीर्घवृत्तजीय
Elliptical motion	...	दीर्घवृत्तीय गति
Elongated	...	दीर्घीकृत
Elongation	...	दैर्घ्य वृद्धि
Emanation	...	उद्गार
Embers	...	अंगारे
Emerge	...	बाहिर निकलना
Emergence	...	निर्गमन



Emergence, angle of—...	निर्गमन कोण
Emergent ray ...	निर्गत किरण
Emery paper ...	ऐमरी कागज
Emission ...	स्कंदन
Emission theory ..	स्कंदन सिद्धांत
Emit ...	स्कंदन करना
Emitter ...	स्कंदक
Empirical ...	प्रयोगसिद्ध
Enamel ...	इनैमल
End ...	प्रांत, सिरा
End-correction ...	प्रांत संशोधन
End, fixed ...	बद्ध प्रांत
End, closed ...	बद्ध प्रांत
End, free ...	मुक्त प्रांत
End, open ...	मुक्त प्रांत
Endless chain ...	अंतहीन श्रृंखला
Endosmometer ...	अंतराभिसरण मापक
Endosmose ...	अंतराभिसारी
Endosmosis ...	अंतराभिसरण
Enērgy ...	शक्ति
Energy, external ...	बाह्यशक्ति
Energy, internal ...	आंतर शक्ति
Energy, intrinsic ...	नैज शक्ति
Energy, kinetic ...	गतिज शक्ति
Energy, potential ...	स्थितिज शक्ति
Engine ...	इंजन
Engine, heat— ...	ताप-इंजन
Engine, internal combustion—	अंतर्दहन इंजन
Engine, oil— ...	तेल का इंजन
Engine, crude oil— ...	अशुद्ध तेल का इंजन
Engine, steam— ...	भाप का इंजन

Engraving	...	उत्कीर्णन
Entropy	...	अंत्रोपी
Envelope (curve)	...	अन्वालोप
Envelope (verb)	...	अन्वालोपन करना, ढक लेना
Equal	...	बराबर
Equaliser	...	समीकारक
Equalising	...	समीकारक
Equality	...	समता
Equation	...	समीकरण
Equation of time	...	कालसमीकरण
Equator, celestial	...	व्योम निरक्ष
Equator (geographical)	...	भूमध्य रेखा, निरक्ष
Equator, magnetic	...	चुम्बकीय निरक्ष
Equatorial	...	निरक्षीय
Equatorial telescope	...	निरक्षीय दूरबीन
Equilibrium	...	साम्य
Equilibrium, dynamical	...	गत्यात्मक साम्य
Equilibrium, neutral	...	उदात्तीन साम्य
Equilibrium, stable	...	स्थायी साम्य
Equilibrium, statical	...	स्थित्यात्मक साम्य
Equilibrium, unstable	...	अस्थायी साम्य
Equilibrium, to be in—	...	समतुलित होना
Equipotential	...	समविभव
Equivalent (adj.)	...	तुल्य
Equivalent, electro-chemical	...	विद्युत् रासायनिक तुल्यांक
Equivalent mechanical	...	यांत्रिक तुल्यांक
Equivalent lens	...	तुल्यचित्रक लैस
Erect	...	सीधा
Erecting lens	...	अनुलोमक लैस
Erg	...	अर्ग
Eriometer	...	ऊर्णामापक

Error	...	भूल
Error, zero—	...	शून्यभूल
Escapement (of a clock)	...	विमोचक
Estimation	...	अंदाज़ा, कृत
Estimation, eye—	...	आँस का अंदाजा
Ether	...	ईथर
Ether-luminiferous	...	तेजोवाही ईथर
Etherial	...	ईथरीय
Eureka	...	यूरिका
Evacuate	...	शून्य करना
Evacuation	...	शून्यीकरण
Evaporate	...	वाष्पीभूत करना
Evaporating basin	...	वाष्पीकारक प्याला
Evaporation	...	वाष्पी भवन
Exact	...	यथार्थ
Exchange	...	विनिमय
Exchanges, theory of—	...	विनिमय सिद्धांत
Exchange, telephone	...	टेलीफोन ऐक्सचेंज, टेलीफोन संयोगालय
Excitation	...	उत्तेजन
Exciter	...	उत्तेजक
Exciting	...	उत्तेजक
Exert (force)	...	( बल ) लगाना
Exhaust	...	शून्य करना
Exhaustion	...	शून्यीकरण
Exit-tube	...	निर्गमननलिका
Expand	...	प्रसारित होना
Expansibility	...	प्रसरणशीलता
Expansible	...	प्रसरणशील
Expansion	...	प्रसार
Expansion, apparent	...	व्यक्तप्रसार
Expansion, free	...	मुक्तप्रसार
Expansion, cubical	...	आयतनप्रसार

Expansion, linear	...	दैर्घ्य प्रसार
Expansion superficial	...	क्षेत्रप्रसार
Expansion, coefficient of	...	प्रसार गुणक
Experiment	...	प्रयोग
Experimental	...	प्रायोगिक, प्रयोगात्मक
Experimental science	...	प्रयोगात्मक विज्ञान, प्रायोगिक विज्ञान
Experimental value	...	प्रयोगालब्ध मूल्य
Experimenter	...	प्रयोग कर्ता
Explanation	...	व्याख्या
Explain	...	व्याख्या करना
Explode	...	विस्फुटित होना
Explosion	...	विस्फोटन
Expose (phtography)	...	उद्घाटित करना
Expose to air	...	खुला रखना
Exposed column	...	अनावृतस्तंभ
Exposure	...	उद्घाटन
Extension	...	विस्तार
Exterior	...	बाह्य
External	...	बाह्य
Extraordinary ray	...	असाधारण किरण
Extreme	...	चरम, श्रृंतिम
Extremity	...	उपांत छोर
Eye	...	नेत्र
Eye-ball	...	नेत्रगोलक, अक्षिगाल
Eye-glass	...	अभिवर्द्धक लैन्स
Eye-lens	...	अभिनेत्रलैन्स
Eye-piece	...	उपनेत्र
Eye-ring	...	उपनेत्र छिद्र
Eye-piece, negative	...	पृष्ठदर्शी उपनेत्र
Eye-piece, positive	...	अग्रदर्शी उपनेत्र
Face (of a prisom)	...	फलक
Facet	..	फलकिका

Factor	...	गुणक
Fall (of pressure, etc.)	...	पतन
Farad	...	फैरड
Far-point	...	दूर-विन्दु
Fatigue, elastic	...	स्थितिस्थापक श्रान्ति
Feeble	...	मंद
Feed (a machine : verb)	...	पूरना
Feeder	...	पोषक
Felt	...	फैल्ट
Ferromagnetic	...	लोह-चुम्बकिक
Ferromagnetism	...	लोह-चुम्बकत्व
Fibre	...	तन्तु, रेशा, सूत्र
Field	...	क्षेत्र
Field-glasses	...	क्षेत्र-दूरबीन
Field-lens	...	क्षेत्रवर्धक लैन्स
Field of view	...	दृष्टि-क्षेत्र
Fifth (music)	...	पांचमिक निष्पत्ति, पंचम
Figure (geometry)	...	आकृति
Figure (illustration)	...	चित्र
Figure of merit of galvanometer.	of	धारामापक का दक्षतांक
Filament	...	तन्तु
File	...	रेती
File (verb)	...	रेतना
Filings	...	रेतन, बुरादा
Film	...	पटल
Film (photography)	...	फ़िल्म
Filter	...	निःस्यन्दक
Filter, colour—	...	वर्ण निःस्यन्दक
Filter, wave—	...	तरंग निःस्यन्दक
Finish (of an article)	...	परिष्कृति
Finite	...	परिमित

Fire-engine	...	आग बुझाने का इंजन
Fire-proof	...	अग्निजित्
Fire-clay	...	अग्निजित् मिट्टी
Fit	...	नियोजन करना
Fittings (of an apparatus)		नियोज्य
Fits	...	दौरा
Fix (a machine)	...	बैठाना
Fix (photo)	...	पक्का करना
Fixed	...	नियत
Fixed points (of a thermometer)		स्थिर विन्दु
Fixed point, lower	...	अधो विन्दु
Fixed point, upper	...	उर्ध्व विन्दु
Flame	...	ज्वाला
Flame, sensitive	...	शब्द दर्शक ज्वाला
Flame, singing	...	गायक ज्वाला
Flap-valve	...	पट-वाल्व
Flash	...	चमक
Flask	...	फ्लास्क
Flat	...	अपटा
Flat (note)	...	कोमल ( सुर )
Flexibility	...	लचक
Flexible	...	लचकदार
Flint glass	...	फ्लिंट काँच
Float (noun)	...	प्लव
Float (verb)	...	तैरना
Flow (noun)	...	बहाव
Flow (verb)	...	बहना
Fluctuate	...	विलुब्धित होना
Fluctuating	...	विलुब्धित
Fluctuation	..	विलोलन
Fluid	...	तरल

Fluidity	...	तरलता
Fluoresce	...	प्रतिदीप्त होना
Fluorescence	...	प्रतिदीप्ति
Fluorescent	...	प्रतिदीप्त
Flute	...	बांसुरी
Flux	...	रेखा प्रवाह
Flux (soldering)	...	द्रावक
Flywheel	...	गतिपालक चक्र
Focal	...	नाभीय
Focal distance or length	...	नाभ्यन्तर
Focal line	...	रेखा नाभि
Focal plane	...	नाभितल
Focal point	...	नाभि
Focus	...	नाभि
Focus (—the rays) (verb)		संग्रह करना, संसृत करना
Focus (—an image) (verb)		स्पष्ट करना
Focus, conjugate	...	अनुबद्ध नाभि
Focus, principal	...	मुख्य नाभि
Focus, first principal	...	प्रथम नाभि
Focus, second principal		द्वितीय नाभि
Focus, real	...	वास्तविक नाभि
Focus, virtual	...	काल्पनिक नाभि
Fog	...	कोहरा, कुहासा
Foil	...	पन्नी
Foot (unit of length)	...	फुट
Foot (of a stand)	...	पैर
Foot-pound	...	फुट पाउंड
Foot-poundel	...	फुट पाउंडल
Foot-rule	...	फुटा
Force	...	बल
Forced vibration	...	प्रेरित कम्पन
Forces. like	...	एक सूखी बल

Forces, unlike	...	विमुखी बल
Force, opposite	...	विरुद्ध बल
Force-pump	...	बल पम्प
Forcing	...	प्रेरणा
Form	...	आकृति, रूप
Formula	...	सूत्र
Fourth (music)	...	चातुर्थिक निष्पत्ति, मध्यम
Frame (of dynamo)	...	फ्रेम
Frame-work	...	ढाँचा
Free	...	स्वाधीन
Freeze	...	जमना, जमाना
Freezer	...	हिमयन्त्र
Freezing machine	...	बरफ जमाने की मशीन
Freezing mixture	...	हिम मिश्रण
Freezing point	...	हिमांक
Frequency	...	आवृत्ति
Frequency meter	...	आवृत्ति मापक
Friction	...	घर्षण
Friction, angle of	...	घर्षणकोण
Friction, coefficient of	...	घर्षण गुणांक
Friction, fluid	...	तरल घर्षण
Friction, limiting	...	चरम घर्षण
Friction, rolling	...	लुंठन घर्षण
Friction, statical	...	स्थित घर्षण
Friction-wheel	...	घर्षण चक्र
Frictional	...	घर्षणीय
Frictionless	...	घर्षणहीन
Frill (noun)	...	झालर
Frill (verb)	...	झुरी पड़ना
Fringe	...	धारी
Fringe, interference	...	व्यतिकरण धारी
Fringe, diffraction	...	विवर्तन धारी



Frost	...	तुषार, पाला
Fulcrum	...	आलम्ब
Full (load, etc.)	...	पूर्ण
Fume	...	धूम
Function	...	कर्म, कार्य
Fundamental	...	सारभूत; मूल
Funnel	...	कीप
Furlong	...	फरलांग
Furnace	...	भट्टी
Fuse	...	पिघलना, पिघलाना, गलना, गलाना
Fuse together	...	मिलाना, जोड़ना, एकीभूत होना
Fuse (chemical)	...	पक्कीता
Fuse (electric)	...	फ्यूज
Fusible	...	गालनीय
Fusion	...	गालन
Fusion	...	एकीभवन
Gallon	...	गैलन
Galvanometer	...	धारामापक
Galvanometer, astatic	...	अनासक्त धारामापक
Galvanometer, ballistic	...	प्रक्षेप धारामापक
Galvanometer, differential.	...	अन्तरदर्शक धारामापक
Galvanometer, mirror	...	परावर्त्तन धारामापक
Galvanometer, moving coil.	...	चलवेष्टन धारामापक
Galvanometer, moving magnet.	...	चलचुम्बक धारामापक
Galvanometer, pointer	...	सूची धारामापक
Galvanometer, reflecting	...	परावर्त्तन धारामापक
Galvanometer, suspended	...	चलवेष्टन धारामापक

Galvanometer, suspended magnet.	चलचुम्बक धारामापक
Galvanometer, tangent...	स्पर्शज्या धारामापक
Galvanometer, thermo—	तापीय धारामापक
Galvanometer, vibration	कम्पन धारामापक
Galvanometer constant...	धारामापक का चेतनांक
Galvanometer, figure of merit of.—	धारामापक का दृष्टतांक
Galvanometer, reduction factor of.—	धारामापक का गुणक
Galvanometry ...	विद्युत् धारामापन
Galvanoscope ...	धारादर्शक
Gama rays ...	गामाकिरण
Gamut ...	सप्तक
Gap ...	खला
Gas ...	गैस
Gas-carbon ...	गैस-कार्बन
Gas-engine ...	गैस-इंजन
Gas-jet ...	गैस की सूक्ष्म ज्वाला
Gas, perfect ...	पूर्ण गैस
Gas, permanent ...	स्थिरस्थायी गैस
Gaseous ...	गैसीय
Gauge ...	प्रमापक
Gauge, micrometer ...	सूक्ष्मपेच प्रमापक
Gauge, pressure ...	दाब प्रमापक
Gauge, screw ...	पेच-प्रमापक
Gauge, standard wire ...	प्रमाण तार प्रमापक
Gauge, wire ...	तार-प्रमापक
Gauss ...	गाउस
Gear ...	दन्तुर चक्रक
Gear, reducing ...	लघुकारक दन्तुर चक्रक
Geissler tube ...	जैसलर नलिका

Gelatine	...	जिल्लेटिन
Gem	...	मणि, जवाहर
Generate	...	उत्पन्न करना
Generator	...	जनक
German silver	...	जर्मन सिल्वर
Gild	...	सोना चढ़ाना
Girder	...	गाडर, कड़ी
Given (things, value, etc.)	...	दत्त, दिया हुआ, दी हुई
Glacier	...	हिमनदी
Glass	...	कांच, शीशा
Glass, crown	...	क्राउन कांच
Glass, flint	...	फ्लिन्ट कांच
Glass-cutter	...	कांच काटने की कलम
Glassy	...	अमणिभ
Glaze (noun)	...	ग्लेज़
Glazed	...	चिकना, ग्लेज़ किया हुआ
Globe	...	गोला
Globular	...	गोलाकार
Globule	...	गोली, बूँद
Glow	...	चमक
Glow-lamp	...	विद्युद्दीप
Glue	...	सरेस
Goniometer	...	मणिभकोणमापक
Goniometer, reflecting	...	परावर्त्तन मणिभ कोणमापक
Governor (of an engine)	...	नियंत्रक
Gradient	...	प्रवणता
Gradual	...	क्रमिक
Gradually	...	धीरे धीरे
Graduate	...	अंशांकित करना
Graduated	...	अंशांकित
Graduation	...	अंशांकन
Grain (measure)	...	अने

Grain	...	दाना
Gram	...	ग्राम
Gram-calorie	...	ग्रामकलारी
Gramophone	...	ग्रामोफोन
Graph	...	लेखाचित्र
Graph paper	...	वर्गीकृत पत्र
Graphical method	...	लेखाचित्र विधि
Graphically	...	लेखाचित्र द्वारा
Grating	...	ग्रेटिंग
Grating, concave	...	नतोदर ग्रेटिंग
Grating, diffraction	...	विवर्तन ग्रेटिंग
Grating, echelon	...	सोपानी ग्रेटिंग
Grating, plane	...	समतल ग्रेटिंग
Gravitation	...	गुरुत्वाकर्षण
Gravitation, constant	...	गुरुत्वांक
Gravitation, universal	...	विश्व गुरुत्वाकर्षण
Gravity	...	गुरुत्व
Gravity, specific	...	विशिष्ट घनत्व
Green	...	हरा
Grid	...	जाल
Grid-bias	...	जालचलन
Grid leak	...	जाल चरणी
Gridiron pendulum	...	बहुदंडी दोलक
Grind	...	पीसना, घिसना
Grinding (of lenses)	...	निघर्षण, घिसना
Groove	...	खांच
Ground	...	भूमि
Ground (verb)	...	भूमि संपृक्त करना
Grounded	...	भूमि संपृक्त
Ground-glass	...	घर्षित कांच
Gutta-percha	...	गटा पार्चा
Gyration	...	घूर्णन

Gyration, radius of	...	घूर्ण त्रिज्या
Gyroscope	...	घूर्णस्थापक
Gyrostad	...	घूर्णस्थापक
Gyrostatic	...	घूर्णस्थापकीय
Hail	...	ओलों की वर्षा, शिलावृष्टि
Hail-stone	...	ओला
Hail-storm	...	ओलों की वर्षा शिलावृष्टि
Hair-spring	...	बाल कमानी
Halation	...	परिवेषण
Half-shade plate		अर्धवरण पट्ट
Half-shade polarimeter...		अर्धवरण ध्रुवनमापक
Half-wave plate	...	तरंगार्ध पट्ट
Halo	...	परिवेष
Hammer	...	हथौड़ा
Hammer (piano)	...	हथौड़ी
Handle	...	दस्ता, मूठ, बेंट
Hand-pump	...	हाथ का पम्प
Hand regulation	...	हस्त नियंत्रण
Hard	...	कठोर, कड़ा
Harden	...	कठोर करना
Hardening (steel)	...	कठोरी करण
Hardness	...	कठोरता
Harmonic analysis	...	सरल आवृत्त-विश्लेषण
Harmonic curve	...	सरल आवृत्त वक्र
Harmonic motion, simple		सरल आवृत्त गति
Harmonic series	...	सुस्वर श्रेणी
Harmonically, varies	...	सरल आवृत्त विधि से परिणमित होता है
Harmonic	...	अतिसंवादी
Harmony	...	सुस्वरता
Head of a screw	...	पेच का शिर
Head of water	...	जल का उस्सेध

Head, torsion—	...	पेंडन टापी
Heat	...	ताप
Heat, atomic	...	परमाणु ताप
Heat, capacity of	...	ताप समावेशन
Heat, latent	...	गुप्त ताप
Heat, molecular	...	अणु ताप
Heat, specific	...	आपेक्षिक ताप
Heat, total (of steam)	...	समग्र ताप
Heater	...	तापक
Hectogram	...	हैकोग्राम
Hectometer	...	हैकामीटर
Height	...	ऊँचाई
Helical	...	नलक सर्पिलाकार
Heliograph	...	प्रकाश संकेत
Helimeter	...	सूर्य मापक
Helioscope	...	सूर्य दर्शक
Heliostat	...	सूर्य स्थापक
Helix	...	नलक सर्पिल
Hemisphere	...	गोलार्ध
Henry	...	हैनरी
Hermetically sealed	...	द्रवण मुद्रित
Heterogeneous	...	विषमांगी, विषमांशी
Heterogeneity	...	विषमांगिता, विषमांशिता
High frequency	...	उच्च आवृत्ति
High frequency current	...	उच्च आवृत्ति धारा
High pitch	...	तार स्वर, ऊँचा सुर
High-power objective	...	अतिवर्धक उपदृश्य
High potential	...	उच्च विभव
High pressure	...	उच्च दाब
High temperature	...	उच्च तापक्रम
High vacuum	...	उच्च शून्य
Hinge	...	कब्जा

Hoarfrost	...	तुषार
Hoarfrost line	...	तुषार रेखा
Holder	...	धारक
Hole	...	छिद्र, छेद, सुराख
Hollow	...	पोला
Homogeneity	...	समांगिता, समांशिता
Homogeneous	...	समांगी, समांशी
Homegeneous immersion	...	समांशी निमज्जन
Homogeneous immersion objective.	...	समांशी निमज्जन उपदृष्य
Hook	...	आंकड़ा, हुक
Horizon	...	क्षितिज
Horizon, artificial	...	कृत्रिम क्षितिज
Horizon glass	...	क्षितिज दर्पण
Horizontal	...	क्षैतिज
Horse-power	...	अश्व सामर्थ्य
Horse-shoe magnet	...	नाल चुम्बक
Hot	...	उष्ण, गरम
Hot air engine	...	तप्तवायु इंजन
Hot wire ammeter	...	तप्ततार अम्पीयरमापक
Hot wire voltmeter	...	तप्ततार वोल्टमापक
Hotness	...	उष्णता
Hour	...	घंटा
Hour-glass	...	रेत घड़ी
Humid	...	आर्द्र
Humidity	...	आर्द्रता
Humidity, relative	...	आपेक्षिक आर्द्रता
Humour, aqueous	...	जलीय रस
Humour, vitreous	...	सान्द्र रस
Hundredweight	...	हन्डरवेट
Hunting	...	अनुधावन
Hydraulic (machine)	...	जल प्रेरित

Hydraulics	...	चलज्जल विज्ञान
Hydro-dynamics	...	द्रवगति विज्ञान
Hydro-electric	...	जल वैद्युत
Hydrometer	...	द्रवघनत्वमापक
Hydrophone	...	हाइड्रोफोन
Hydrostatic balance	...	उत्प्लावन तुला
Hydrostatics	...	द्रव-स्थिति-विज्ञान
Hygrograph	...	आर्द्रता लेखक
Hygrometer	...	आर्द्रता मापक
Hygrometry	...	आर्द्रता मापन
Hygroscope	...	आर्द्रता दर्शक
Hygroscopic substance	...	जलग्राहक पदार्थ
Hyperbola	...	अतिपरवलय
Hyperboloid	...	अतिपरवलयज
Hypermetropia	...	दीर्घ दृष्टि
Hypothesis	...	अनुमान
Hypothetical	...	कल्पनात्मक
Hypsometer	...	क्वथनोत्सेधमापक
Hysteresis	...	शैथिल्य
Ice	...	बरफ
Ice-line	...	हिमरेखा
Identical	...	अभिन्न
Idle	...	निष्क्रिय
Illuminant	...	प्रदीपक
Illuminate	...	प्रदीप्त करना
Illuminated	...	प्रदीप्त
Illumination	...	प्रदीप्ति
Illuminating power	...	प्रदीपन शक्ति
Illustration	...	उदाहरण
Image	...	प्रतिबिम्ब
Immersion	...	निमज्जन
Immersion, homogeneous	...	समांशी निमज्जन



Immiscible	...	अमिश्रणीय
Impact	...	टक्कर, संघात
Impact, direct	...	समच्च संघात
Impedence	...	प्रतिष्टंभ
Impenetrability	...	अभेद्यता
Impenetrable	...	अभेद्य
Imponderable	...	भारहीन
Impulse	...	संवेग
Impulsive-force	...	संवेगबल
Impure	...	अशुद्ध
Impurity	...	अशुद्धि, अपद्रव्य
Inactive	...	निष्क्रिय
Inactivity	...	निष्क्रियता
Incandescence	...	तापोज्ज्वलता
Incandescent	...	तापोज्ज्वल
Inch	...	इंच
Incidence	...	आपतन
Incidence, angle of	...	आपतनकोण
Incidence, point of	...	आपतनबिन्दु
Incident ray	...	आपतित किरण
Inclination	...	आनति
Inclined	...	आनत
Inclined plane	...	आनत धरातल
Inclinometer	...	आनतिमापक
Incompressible	...	असंपीड्य
Incompressibility	...	असंपीड्यता
Indestructibility	...	अविनाशिता
Indestructible	...	अविनाशी
Index (-pointer)	...	निर्देशक
Index (maths )	...	घातांक
Index, refractive	...	वर्षनांक
Index glass	...	निर्देश दर्पण

India rubber	...	रबड़
Indicate	...	सूचना करना; बतलाना
Indicated	...	सूचित
Indicator	...	सूचक
Indicator diagram	...	सूचक चित्र
Indigo (colour)	...	नीला
Indirect	...	परोक्ष, अनृजु
Induce	...	उपपादन करना
Induced	...	उपपादित
Inducing	...	उपपादक
Inductance	...	उपपादकत्व
Inductance, mutual	...	परोपपादकत्व
Inductance, self—	...	आत्मोपपादकत्व
Induction	...	उपपादन
Induction mutual	...	परोपपादन
Induction, self—	...	आत्मोपपादन
Induction coil	...	उपपादन वेष्टन
Inductive	...	उपपादक
Inductivity	...	उपपादकत्व
Inductometer	...	उपपादकत्व मापक
Inductor	...	उपपादक
Inductor, earth	...	पृथिव्योपपादक
Inert	...	जड़
Inert	...	निष्क्रिय
Inertia	...	जड़त्व
Inertial	...	जड़त्वीय
Inertial system	...	जड़व्यूह
Inference	...	अनुमान
Infinite	...	अपरिमित
Infinity	...	अनन्त
Inflammable	...	अदहनशील
Infrangible	...	अभंगनशील

Infra-red	...	उपरक्त
Infusible	...	अगालनीय
Input	...	अन्तःपत्ति
Insoluble	...	अविलेय
Insolubility	...	अविलेयता
Inspection	...	निरीक्षण
Install	...	स्थापित करना
Installation	...	(१)प्रतिष्ठापन(२)मशीन का कारखाना
Instant	...	क्षण
Instantaneous	...	तात्कालिक
Instrument	...	यंत्र
Instrument, musical	...	वाद्य, बाजा
Instrument, reed	...	जिह्वाल-वाद्य
Instrument, wind	...	वायुवाद्य
Insulate	...	पृथगन्यस्त करना
Insulated	...	पृथगन्यस्त
Insulating	...	पृथगन्यासक
Insulation	...	पृथगन्यास
Insulator	...	पृथगन्यासक
Intake	...	अन्तर्ग्रहण
Intensify	...	तीव्र करना
Intensifying screen	...	तीव्रकारक परदा
Intensity	...	तीव्रता
Inter-atomic	...	अन्तर परमाणुक
Intermolecular	...	अन्तर अणुक
Interface	...	मध्यतल
Interfere (light)	...	व्यतिकरण करना
Interference	...	व्यतिकरण
Interference, destructive	...	विनाशक व्यतिकरण
Interfering	...	व्यतिकारक
Interferometer	...	व्यतिकरण मापक
Internal	...	आन्तरिक

Internal coating	...	अन्तराच्छादन
Interpole	...	अन्तर्ध्रुव
Interrupt	...	उपरोध करना
Interrupter	...	उपरोधक
Interrupter, electrolytic	...	विद्युद्भिच्छेदन उपरोधक
Interrupter, mercury	...	पारद उपरोधक
Interrupter, platinum	...	प्लेटिनम ,,
Intersection	...	छेदन
Interstice	...	अन्तराल
Interval	...	अन्तर
Interval (music)	...	स्वरनिष्पत्ति
Intra-atomic	...	अधि-परमाणुक
Intra-molecular	...	अधि-अणुक
Intrinsic	...	निज, नैज
Intrinsic energy	...	नैजशक्ति
Intrinsic luminosity	...	नैज दीप्ति
Invent	...	सृष्टि करना, ईजाद करना
Invention	...	सृष्टि, ईजाद
Inventor	...	स्रष्टा
Inverse	...	व्यक्रान्त
Inverse ratio	...	व्यक्रम-निष्पत्ति
Inverse square law	...	व्यक्रमवर्ग नियम
Inversion	...	व्यक्रमण
Inversion, lateral	...	परिवर्तक व्यक्रमण
Inversely	...	व्यक्रमतः
Inversely proportional	...	व्यक्रमानुपाती
Invert	...	विपर्यस्त करना, उलटा करना, उलटना
Inverted	...	विपर्यस्त, उलटा
Investigate	...	अन्वेषण करना
Investigation	...	अन्वेषण
Invisible	...	अदृश्य
Ion	...	आयन

Ionic	...	आयनिक
Ionisation	...	आयनीकरण
Ionise	...	आयनित करना, आयनित होना
Ionised	...	आयनित
Ionised, doubly	...	द्विधा आयनित
Ionised, singly	...	एकधा आयनित
Iris	...	तारामंडल
Iris-diaphragm	...	तारापट
Iron-core transformer	...	लौहगर्भ परिणामक
Irradiation	...	उद्योतन
Irreversible	...	अनुत्क्रमणीय
Irrotational	...	परिभ्रमणहीन
Isentropic	...	समान्त्रोपीय
Isobar	...	समदाब रेखा
Isobaric	...	समदाब
Isochromatic	...	समवर्ण
Isochronous	...	सुस्यकालिक
Isoclinic line	...	समावपाती रेखा
Isodynamic line	...	समबल रेखा
Isogonic line	...	समदिक्पाती रेखा
Isolate	...	पृथक् करना
Isometric line	...	समायतन रेखा
Isometric crystal	...	समदिक् मण्डल
Isopiestic line	...	समदाब रेखा
Isopycnic	...	समघनत्व रेखा
Isotherm	..	समतापक्रम रेखा
Isothermal	...	समतापक्रमीय
Isotope	...	समस्थानीय
Isotopic	...	समस्थानीय
Isotropic	...	समदिक्
Isotropy	...	समदिक्त्व
Ivory	...	हाथीदाँत

Jacket	...	जाकट
Jar	...	ज़ार
Jar, measuring	...	मापक
Jaws	...	हनु, जाबड़ा
Jelly	...	जेली
Jet (of liquid)	...	धार
Jet (pointed tube)	...	चोंच
Joint	...	जोड़
Joule	...	जूल
Jupiter	...	बृहस्पति
Just intonation	...	शुद्धसप्तक
Juxta-position	...	सन्नधि
Kaleidophone	...	कम्पनचक्र दर्शक
Kaleidoscope	...	बहुरूपदर्शक
Kathode	...	ऋणद्वार
Kation	...	ऋण आयन
Keeper	...	रक्षक
Kernel	...	मींगी
Key	...	कुंजी
Key (music)	...	परदा
Key, discharging	...	विसर्जक कुंजी
Key, reversing	...	दिक्परिवर्तक कुंजी
Key, tapping	...	दाब कुंजी
Key-board	...	परदों की तख्ती
Key-note	...	बादीसुर
Kick (of a galvanometer)	...	प्रक्षेप
Kilo	...	किलोग्राम
Kilo-cycle	...	सहस्रावर्तन
Kilogram	...	किलोग्राम
Kilogram-calorie	...	किलोग्राम कलारी
Kilometre	...	किलोमीटर
Kilo-volt	...	किलोवोल्ट

Kilowatt	...	किलोवाट
Kilowatt-hour	...	किलोवाट घंटा
Kinematics	...	गतिविज्ञान
Kinematograph	...	सिनेमेटोग्राफ
Kinetic	...	गत्यात्मक
Kinetic energy	...	गतिज शक्ति
Kinetic theory	...	गत्यात्मक सिद्धान्त
Knife-edge	...	असिकोर
Knife-switch	...	छुरिकास्विच
Known quantity	...	व्यक्त राशि, ज्ञात राशि
Known value	...	ज्ञात मूल्य
Laboratory	...	प्रयोगशाला
Lacquer	...	लाक का वार्निश
Lactometer	...	दुग्ध परीक्षक
Lag	...	पीछे रह जाना, पिच्छट
Lamina	...	पटल
Laminated	...	पटलित
Lamination	...	पटल
Lamp	...	दीप, दीपक, लम्प
Lamp, arc	...	आर्क-लम्प
Lamp, carbon filament...	...	कार्बनतन्तु दीपक
Lamp, gas-filled	...	गैसपूर्ण विद्युद्दीपक
Lamp, glow	...	तापोज्ज्वल विद्युद्दीपक
Lamp, half-watt	...	अर्धवाट विद्युद्दीपक
Lamp, incandescent	...	तापोज्ज्वल विद्युद्दीपक
Lamp, safety	...	अभयदीप
Lampblack	...	काजल
Lantern	...	लालटैन
Lantern, magic	...	चित्रदर्शक लालटैन
Lantern, optical	...	चित्रदर्शक लालटैन
Lantern, projection	...	चित्रदर्शक लालटैन
Latent	...	गुप्त

Latent heat	...	गुप्त ताप
Latent image	...	अभ्यक्त प्रतिबिम्ब
Lateral	...	पार्श्विक
Lateral inversion	...	पार्श्विक उल्लमण
Lathe	...	खराद
Latitude	...	अक्षांश
Latitudinal	...	अनुप्रस्थ
Law	...	नियम
Layer	...	स्तर
Lead	...	(१) सीसा (२) पुरस्सवरण
Lead (verb)	...	आगे रहना
Leaf	...	वरक, पत्र
Leak .	...	सरण, चू जाना
Leakage	...	सरण
Least count	...	अल्पतमांक
Length	...	लम्बाई
Length, wave—	...	तरंग दैर्घ्य
Lens	...	लैन्स
Lens, achromatic	...	अवर्णक लैन्स
Lens, bifocal	...	द्विनाभिक लैन्स
Lens, compound	...	यौगिक लैन्स
Lens, crystalline	...	नेत्र काच
Lens, cylindrical	...	बेलनतल लैन्स
Lens, erecting	...	अनुलोमक लैन्स
Lens, equivalent	...	तुल्यचित्रक लैन्स
Lens, field—	...	क्षेत्रवर्धक लैन्स
Lens, magnifying	...	अभिवर्धक लैन्स
Lens, photographic	...	फोटो का लैन्स
Lens, projecting	...	चित्रदर्शक लैन्स
Lens, spectacle	...	ऐनक या चरमे का लैन्स
Lens, spherical	...	गोलीयलैन्स
Lens, sphero-cylindrical	...	बेलन गोलीय लैन्स



Lens, telephoto	...	दूरचित्रक लैम्स
Level (adj.)	...	सम
Level (noun)	...	तल
Lever	...	लीवर, उत्तोलक
Leyden jar	...	लीडन जार
Lifting power	...	उत्थापक बल
Lift pump	...	उत्थापक पम्प
Light	...	प्रकाश
Light, homogeneous	...	एकवर्ण प्रकाश
Light, monochromatic	...	एकवर्ण प्रकाश
Light, quasi-homogeneous.	...	एकवर्णाभास प्रकाश
Light, standards of	...	प्रमाण दीपक
Light, source of	...	प्रकाशोत्पादक, दीपक
Light house	...	प्रकाशस्तम्भ
Lightning	...	तड़ित्
Lightning conductor	...	तड़ित्चालक
Limit	...	सीमा
Limit, lower	...	अधः सीमा
Limit, upper	...	ऊर्ध्व सीमा
Limited	...	ससीम
Limiting value	...	चरममान
Line	...	रेखा
Line (electricity)	...	तार; पथ
Line, broken	...	छिन्न रेखा
Line, continuous	...	अविच्छिन्न रेखा
Line, curved	...	वक्र रेखा
Line, dotted	...	चिन्तुमय रेखा
Line, spectral	...	वर्णपट रेखा
Line, straight	...	सरल रेखा
Line of action	...	कार्य रेखा
Line of force	...	बलरेखा

Lining	...	अस्तर
Link	...	बन्धन
Link (of chain)	...	कड़ी
Lip	...	ओष्ठ, होठ
Lip (of beaker)	...	मुँह
Liquid	...	द्रव
Liquifaction	...	द्रवीकरण
Liquify	...	द्रवित करना
Live (wire, etc.)	...	विद्युन्मय
Litre	...	लिट्र
Load	...	भार
Load	...	भारग्रस्त करना
Loaded	...	भारग्रस्त
Local	...	स्थानीय
Local action	...	स्थानीय क्रिया
Localisation	...	स्थान निर्देश
Location	...	स्थान
Locomotion	...	चाल
Locomotive	...	रेल का इंजन
Lode-stone	...	चुम्बक पत्थर
Logarithm	...	लघु गणक
Logarithmic	...	लघुगणकीय
Logarithmic decrement		लघुगणकीय अपचय
Logarithmic table	...	लघुगणक सारिणी
Longitude	...	रेखांश
Longitudinal	...	अनुदैर्घ्य
Long sight	...	दीर्घ-दृष्टि
Loop	...	पाश, फंदा, चकर
Loud	...	तीव्र
Loudness	...	तीव्रता
Loudspeaker	...	तीव्रोच्चारक
Low pitch	...	नीचासुर

Low pressure	...	विम्नदाब
Low-power objective	...	म्यूनवर्धक उपदृश्य
Lubricate	...	चिकनाना; उपांजन करना
Lubricating oil	...	चिकनाने का तेल; उपांजन तैल
Lubrication	...	चिकनाइट; उपांजन
Lumen	...	ल्यूमन
Luminiferous	...	तेजोवाही
Luminiscence	...	संदीपित
Luminosity	...	दीप्ति
Luminosity, intrinsic	...	नैज दीप्ति
Luminous	...	दीप्त
Lungs	...	फेफड़े, फुफ्फुस
Lustre	...	द्युति
Lustrous	...	द्युतिमान
Lycopodium	...	लाइकोपोडियम
Machine	...	मशीन, यंत्र, कल
Machinery	...	मशीन, यंत्र, कल-
Magnet	...	चुम्बक
Magnet, artificial	...	कृत्रिम चुम्बक
Magnet, bar	...	लम्ब चुम्बक
Magnet, electro—	...	विद्युद् चुम्बक
Magnet, natural	...	प्राकृतिक चुम्बक
Magnet, horse-shoe	...	नालचुम्बक
Magnetic	...	चुम्बकीय
Magnetic keeper	...	चुम्बकत्व रक्षक
Magnetic meridian	...	चुम्बकीय याम्योत्तर
Magnetic moment	...	चुम्बकीय घूर्ण
Magnetic needle	...	चुम्बकीय सूची
Magnetic storm	...	चुम्बकीय तूफान
Magnetise	...	चुम्बकित करना
Magnetised	...	चुम्बकित
Magnetism	...	चुम्बकत्व

Magnetism, terrestrial ...	पार्थिव चुम्बकत्व
Magneto ...	मैग्नेटो
Magneto-electric ...	विद्युच्चुम्बकीय
Magnetograph ...	चुम्बकत्व लेखक
Magnetometer ...	चुम्बकत्व मापक
Magnetometer, Kew pattern.	क्यू चुम्बकत्व मापक
Magnetometer, vibration	दोलन चुम्बकत्व मापक
Magnetomotive force ...	चुम्बकवाहक बल
Magneto-optical ...	चुम्बकप्रकाशीय
Magneto-optics ...	चुम्बकप्रकाश विज्ञान
Magnification ...	अभिवर्धन
Magnified ...	अभिवर्धित
Magnify ...	अभिवर्धन करना
Magnifying glass ...	अभिवर्धकलैन्स
Magnifying power ...	अभिवर्धकता
Magnitude ...	परिमाण
Magnitude (of star) ...	दीप्तिक्रम
Main ...	मुख्य; प्रधान
Mains ...	प्रमुख तार
Mains, overhead ...	आकाशी प्रमुख तार
Mains, underground ...	गड़ा हुआ प्रमुख तार
Maintain (vibrations) ...	अनुपोषित करना
Maintained ...	अनुपोषित
Maintenance ...	अनुपोषण
Major chord ...	दीर्घसंघात
Make and break ...	बंधन और मोचन
Malleable ...	घन-वर्धनीय
Malleability ...	घन-वर्धनीयता
Manganin ...	मंगनिन
Manometer ...	गैसदाबमापक
Manometric flame ...	दाबदर्शक ज्वाला

Manometric capsule	...	दाबदर्शक कूपी
Manufacture	...	निर्माण
Map	...	मानचित्र, नक्शा
Map (verb)	...	खींचना
Mass	...	पिंड, राशि
Mass (quantity)	...	मात्रा
Mass (dynamics)	...	जाड़्य
Massive	...	भारी
Material	...	जड़
Materials	...	सामग्री, सामान, द्रव्य
Matter	...	जड़ पदार्थ, द्रव्य
Maximum	...	उच्चतम, अधिकतम
Maximum thermometer	...	उच्चतम तापमापक
Maxwell	...	मैक्सवैल
Mean	...	मध्यमान
Mean caloric	...	मध्यमान कलारी
Mean solar day	...	मध्यमान सौर दिवस
Mean value	...	मध्यमान मूल्य
Measure	...	माप
Measuring jar	...	मापक जार
Mechanical	...	यांत्रिक
Mechanics	...	यंत्र विज्ञान
Mechanism (of a machine)	...	यंत्र रचना
Mechanism (of a process)	...	क्रिया विधि
Medium	...	माध्यम
Megohm	...	मेग ओह्म
Melody	...	लय
Melt	...	पिघलना, पिघलाना, गलना, गलाना
Melting	...	गलन
Melting point	...	गलनांक
Membrane	...	फिल्ट्री
Membrane, stretched	...	तनी हुई फिल्ट्री

Meniscus lens	...	नवचन्द्राकार लेंस
Meniscus (of a liquid)	...	वक्र तल
Mercury interruptor	...	पारदउपरोधक
Mercury pump	...	पारद पम्प
Mercury vapour lamp	...	पारदवाष्पलम्प
Meridian	...	याम्योत्तर
Meridian, geographical...	...	भौगोलिक याम्योत्तर
Meridian, magnetic	...	चुम्बकीय याम्योत्तर
Meshes	...	छिद्र
Metacentre	...	मितकेन्द्र
Metal	...	धातु
Metal, noble	...	भेद्यधातु
Metallic	...	धातवीय
Meteorite	...	उल्का
Methylated spirit	...	मिथिलित स्पिरिट
Metre	...	मीटर
Metre bridge	...	मीटर-सेतु
Metric system	...	मीटरीय पद्धति
Metronome	...	ताल घड़ी
Mho	...	म्हो
Mica	...	अभ्रक
Micro-ammeter	...	माइक्रो अम्पीयर मापक
Micro-ampere	...	माइक्रो अम्पीयर
Micro-coulomb	...	माइक्रो-कूलम्ब
Microfarad	...	माइक्रो फैरड
Micro-henry	...	माइक्रो हैनरी
Micrometer	...	सूक्ष्ममापक
Micrometer screw	...	सूक्ष्ममापक पेच
Micromillimeter	...	माइक्रो मिलीमीटर
Micron	...	माइक्रोन
Microphone	...	सूक्ष्म शब्दग्राही
Microphotometer	...	सूक्ष्म दीप्तिमापक

Microscope	...	सूक्ष्मदर्शक
Microscope, binocular	...	द्विनेत्री सूक्ष्मदर्शक
Microscope, compound	...	यौगिक सूक्ष्मदर्शक
Microscope, high power	...	अतिवर्धक सूक्ष्मदर्शक
Microscope, low power	...	न्यूनवर्धक ,, ,,
Microscope, metallurgical.	...	धातुक सूक्ष्मदर्शक
Microscope, polarising	...	ध्रुवनसूक्ष्मदर्शक
Microscope, simple	...	सरल सूक्ष्मदर्शक
Microscope, tele---	...	दूरसूक्ष्मदर्शक
Microscope, travelling	...	चलायमान सूक्ष्मदर्शक
Microscope, ultra---	...	अतिसूक्ष्मदर्शक
Microscope, vibration	...	कम्पन-सूक्ष्मदर्शक
Microscopic examination	...	सूक्ष्मदर्शकीय परीक्षा
Micro-volt	...	माइक्रो वोल्ट
Mil	...	सहस्रांश इंच
Mile	...	मील
Milky way	...	आकाश गंगा
Milliammeter	...	मिली अम्पियर मापक
Milliampere	...	मिलीअम्पियर
Millibar	...	मिलीबार
Milligram	...	मिलीग्राम
Milli-henry	...	मिली हैनरी
Millimeter	...	मिलीमीटर
Milli-micron	...	मिली माइक्रन
Milli-volt	...	मिली वोल्ट
Milli-voltmeter	...	मिलीवोल्टमापक
Minimum	...	न्यूनतम, बिम्नतम
Minimum thermometer	...	बिम्नतमतापमापक
Minor chord	...	ऋषुसंघात
Minus	...	ऋथ
Minute	...	मिनट

Mirage	...	मरीचिका, भ्रूगतुष्या
Mirror	...	दर्पण
Mirror, concave	...	नतोदर दर्पण
Mirror, convex	...	उन्नतोदर दर्पण
Mirror, plane	...	समतल दर्पण
Mirror, spherical	...	गोलीय दर्पण
Mirror-image	...	दर्पण-प्रतिबिम्ब
Miscible	...	मिश्रणीय
Miscibility	...	मिश्रणीयता
Mist	...	कुहरा, कुहासा
Mixture	...	मिश्रण
Mixtures, method of	...	मिश्रणविधि
Mode	...	विधि
Model	...	प्रतिरूप
Modification	...	परिवर्तन, परिवर्त
Modified	...	परिवर्तित
Modify	...	परिवर्तित करना
Modulation (music)	...	वादी संक्रमण
Modulation (wireless)	...	संक्रमण
Modulus (of elasticity, etc.)	...	मापांक
Moist	...	आर्द्र
Moisten	...	भिगोना
Moisture	...	आर्द्रता
Molecule	...	अणु
Molecular	...	अणुक
Molecular pump	...	अणुक पम्प
Moment	...	घूर्ण
Moment of inertia	...	घूर्ण जाक्य
Moment of momentum...	...	आवेगघूर्ण
Momentum	...	आवेग
Monoatomic	...	एक परमाणुक
Monochord	...	सुरमापक



Monochromatic	...	एकवर्णी
Monoplane	...	एक पंखी वायुयान
Mortar	...	भोखली, खरळ, ऊखळ
Motion	...	गति
Motion, accelerated	...	वर्द्धमान गति
Motion, circular	...	वृत्त गति
Motion, curvilinear	...	वक्र गति
Motion, elliptical	...	दीर्घवृत्तीय गति
Motion, harmonic	...	सरळ आवर्त गति
Motion, harmonic, simple	...	सरळ आवर्त गति
Motion, oscillatory	...	दोखित गति
Motion, periodic	...	आवर्त गति
Motion, perpetual	...	अनन्त गति
Motion, rectilinear	...	सरळ गति
Motion, retarded	...	हासमान गति
Motion, rotatory	...	परिभ्रमण गति
Motion, uniform	...	समान गति
Motion, vibratory	...	कम्पित गति
Motor	...	मोटर
Motor generator	...	मोटर-विद्युत्जनक
Motor, induction	...	उपदान मोटर
Motor, compound	...	मिश्रवेष्टित मोटर
Motor, series	...	श्रेणीवेष्टित मोटर
Motor, shunt	...	पार्ववेष्टित मोटर
Mount	...	आरोपित करना
Mount	...	आरोप
Mouth	...	मुँह
Mouthpiece	...	मुखनली
Multiphase	...	बहुकली
Multiple	...	अपवर्त्य
Multiplet	...	गायक
Multipolar	...	बहुध्रुवी

Muscle	...	पेशी
Music	...	संगीत
Musical	...	सुस्वर, संगीत संबंधी
Musical ear	...	संगीतज्ञ कान
Musical instrument	...	वाद्य, बाजा
Musical scale	...	स्वरग्राम
Mutual inductance	...	परोपपादकत्व
Mutual induction	...	परोपपादन
Myopia	...	निकट दृष्टि
Narrow	...	संकीर्ण
Natural	...	प्राकृतिक, नैसर्गिक
Natural vibration	...	स्वाभाविक कम्पन
Nature	...	प्रकृति; निसर्ग
Nature of vibration	...	कम्पन का प्रकार
Near point (of the eye)	...	निकट बिन्दु
Needle	...	सुई, निर्देशक
Negative	...	ऋण, ऋणात्मक
Negative (photographic)	...	निगेटिव
Neglect	...	उपेक्षा करना, छोड़ देना
Negligible	...	उपेक्षणीय
Net (Wheat-stone's)	...	जाल
Network	...	जाल
Neutral	...	उदासीन
Neutral axis	...	उदासीन अक्ष
Neutral equilibrium	...	उदासीन साम्य
Neutral point	...	उदासीन बिन्दु
Neutral surface	...	उदासीन पृष्ठ
Neutralise	...	भिराकरण करना
Neutralisation	...	भिराकरण
Neutrality	...	उदासीनता
Nichrome	...	नाइक्रोम
Nickel-silver	...	जर्मन सिल्वर

Nodal point (lens)	...	नतिहीन बिन्दु
Node (astronomy)	...	पात
Node (wave-motion)	...	निःस्पन्द
Noise	...	कोळाहल
Non-conductor	...	अचालक
Non-crystalline	...	अमखिभ
Non-harmonic	...	असरल-भावत्
Non-inductive	...	अनुपपादक
Non-luminous	...	दीप्तिहीन
Non-magnetic	...	अचुम्बकीय
Non-oscillatory	...	दोलनहीन
Non-reactive	...	प्रति याहीन
Non-uniform	...	असम रूप
Non-viscous	...	असान्द्र
Normal	...	प्रमाण
Normal (to a surface)	...	अभिलम्ब
Normal spectrum	...	आदर्श वर्णपट
Normally	...	अभिलम्बतः
North	...	उत्तर
North-pole	...	उत्तर ध्रुव
North-seeking pole	...	उत्तराभिगामी ध्रुव
Note	...	स्वर सुर
Note, complex	...	मिश्र स्वर
Note, fundamental	...	मूल स्वर
Note, simple	...	शुद्ध स्वर
Note-book	...	नोट बुक
Nozzle	...	टोटी
Nuclear	...	केन्द्रकीय
Nucleus	...	केन्द्रक
Null method	...	अविद्येप विधि
Null-point	...	अविद्येप बिन्दु
Number	...	संख्या

Nut	...	हेबरी
Object	...	वस्तु
Object-glass	...	उपदृश्य लैन्स
Objective	...	द्रव्यारमक
Objective (lens)	...	उपदृश्य
Objective, high-power	...	अतिवर्धक उपदृश्य
Objective, immersion	...	निमज्जन उपदृश्य
Objective, low-power	...	न्यूनवर्धक उपदृश्य
Oblate spheroid	...	निम्नाक्ष उपगोल
Oblique	...	तिर्यक्
Oblong	...	आयत
Observation	...	अवलोकन, पाठ
Obseatory	...	वेधशाला
Observe	...	अवलोकन करना
Observed value	...	अवलोकित मूल्य
Observer	...	अवलोकक
Obstacle	...	अवरोध
Obstacle, narrow	...	संकीर्ण अवरोध
Obstruction	...	रुकावट
Occluded	...	अधिधारित
Occlusion	...	अधिधारण
Octave	...	सप्तक
Octave (note of double frequency).	...	अष्टम
Octave, double	...	द्विगुण अष्टम
Octet	...	अष्टक
Ocular (eye-piece)	...	उपनेत्र
Ohm	...	ओह्म
Ohmic	...	ओह्मिक
Ohmmeter	...	ओह्म मापक
Oil-immersion	...	तैल-निमज्जन
Oil-pump	...	तैल-पम्प

Opacity	...	अपारदर्शकता
Opaque	...	अपारदर्शक
Open circuit	...	मुक्त कुंडली
Opening	...	छिद्र, छेद, सुरास
Opera glasses	...	नाट्य दूरबीन
Ophthalmoscope	...	नेत्रपरीक्षक
Ophthalmometer	...	नेत्रमापक
Opisometer	...	वक्रमापक
Opposite	...	अभिमुख
Opposite force	...	विरुद्ध बल
Optic axis	...	प्रकाशाक्ष
Optic nerve	...	दृष्टि नाड़ी
Optical	...	प्रकाश सम्बंधी
Optical bench	...	प्रकाश मंच
Optical centre	...	प्रकाश केन्द्र
Optical illusion	...	दृष्टिभ्रम
Optical instrument	...	आलोक यंत्र, प्रकाश यंत्र
Optical system	...	प्रकाशीय व्यवस्था
Optics	...	प्रकाशविज्ञान
Optics, geometrical	...	रेखागणितीय प्रकाश-विज्ञान
Optics, physical	...	भौतिक प्रकाश-विज्ञान
Orb	...	मंडल
Orbit	...	कक्ष
Orbit of eye	...	नेत्र गुहा
Order (of interference)	...	श्रेणी
Ordinary (ray of image)	...	साधारण
Organ	...	आरगन बाजा
Organ-pipe	...	आरगन सुषिर
Organ-pipe, closed	...	बंद आरगन सुषिर
Organ-pipe, open	...	खुला आरगन सुषिर
Orifice	...	सुँद, मुख
Orthoscopic	...	यथार्थदर्शक

Oscillate	...	दोलन करना
Oscillating (body)	...	दोलित पिंड
Oscillation	...	दोलन
Oscillatory motion	...	दोलनगति
Oscillograph	...	दोलन लेखक
Osmosis	...	अभिसरण
Osmotic pressure	...	अभिसरक दाब
Ounce (oz.)	...	आउंस
Outline	...	साका
Output	...	उत्पत्ति, उपज
Oval	...	अण्डाकार
Oven	...	चूल्हा
Overcooled	...	अतिशीतलीकृत
Over-corrected	...	अतिसंशोधित
Overlap	...	अवगुंडित करना
Overlapping	...	अवगुंडन
Overload	...	अतिभार
Overloaded	...	अतिभारग्रस्त
Overtone	...	अनुरागन
Paddles	...	पेपयो
Paint	...	रोगन
Painting	...	चित्रकला
Panel	...	पट्ट
Parabola	...	परवलय
Paraboloid	...	परवलयज
Paraboloidal	...	परवलयजीय
Parachute	...	अचतरणकुत्र
Paraffin	...	पाराफिन
Parallax	...	प्युति
Parallax (of a star)	...	लम्बन
Parallel	...	समानान्तर

Parallel position (of a nicol).	...	अनुकूल स्थिति
Paramagnetic	...	अनुचुम्बकिक
Paramagnetism	...	अनुचुम्बकत्व
Partial	...	अपूर्व, आंशिक
Partial eclipse	...	अपूर्व ग्रहण
Partial pressure	...	आंशिक दाब
Partials (music)	...	अनुरक्तम
Partials, upper	...	उच्चानुरक्तम
Partially	...	अंशतः
Particle	...	कण
Particle, alpha	...	आलफ़ा कण
Particle, beta	...	बीटा कण
Path	...	मार्ग
Path-difference	...	मार्गान्तर
Path, mean free	...	मध्यमान मुक्त अवधि
Peculiarity	...	विशेषता
Pencil, carbon	...	कार्बन पेंसिल
Pencil, narrow	...	संकीर्ण किरणावली
Pencil of rays	...	किरणावली
Pendular	...	दोलकीय
Pendulum	...	दोलक
Pendulum, compound	...	बौगिक दोलक
Pendulum, conical	...	शंकु-दोलक
Pendulum, simple	...	सरल दोलक
Pentet	...	पंचक
Penumbra	...	उपच्छाया
Per cent.	...	प्रतिशत
Percentage	...	प्रतिशतता
Perceptible	...	प्रतीयमान
Perception	...	प्रतीति
Percussion	...	समाघात

Perfect	...	पूर्ण, उत्कृष्ट
Perfect gas	...	पूर्ण गैस
Perfect interval	...	उत्कृष्ट निष्पत्ति
Perforated	...	सञ्छिद्र
Perforation	...	छिद्र, छेद, सुरास
Period	...	आवृत्तिकाल, कम्पनकाल, दोलनकाल
Periodic	...	आवर्त
Periodic motion	...	आवर्त गति
Periodic time	...	आवृत्तिकाल, कम्पनकाल, दोलनकाल
Periodicity	...	आवर्तत्व
Periphery	...	परिवृत्ति
Peripheral	...	परिवृत्तीय
Periscope	...	परिदर्शक
Permanent	...	स्थायी
Permeability (magnetic)	...	चुम्बकीयता
Permeable	...	प्रवेश्य
Permeable, semi—	...	अर्धप्रवेश्य
Permeameter	...	चुम्बकीयतामापक
Perpendicular	...	लम्ब
Perpendicularly	...	लम्बतः
Perpetual	...	सतत, चिर, स्थायी
Perpetual motion	...	सतत गति
Persistence (of vision)	...	(दृष्टि) निर्बन्ध
Perspective	...	पर्यालोक्य
Pestle	...	मूसल, मूसली
Petrol	...	पेट्रोल
Petroleum	...	पेट्रोलियम
Phantascope	...	चलचित्रदर्शक
Phase (of moon)	...	कला
Phase (of vibrations or wave)	...	कला
Phase, difference	...	कलान्तर



Phenomenon	...	घटना
Phlogiston	...	फ्लोजिस्टन
Phonic wheel	...	स्वरमापक चक्र
Phone	...	टेलीफोन, फोन
Phonodeik	...	शब्द रूपलेखक
Phonograph	...	फोनोग्राफ
Phosphor-bronze	...	फास्फर ब्रांज़
Phosphoresce	...	स्फुरित होना
Phosphorescence	...	स्फुरण
Phosphorescent	...	स्फुरक
Phosphroscope	...	स्फुरणदर्शक
Photo-electric	...	प्रकाशन-वैद्युत
Photo-electricity	...	प्रकाश-विद्युत
Photo-electron	...	प्रकाशज इलेक्ट्रॉन
Photograph	...	फोटो
Photographic lens	...	फोटो का लेंस
Photography	...	फोटो खींचना
Photometer	...	दीप्तिमापक
Photometer, flicker	...	लोल दीप्तिमापक
Photometer, grease spot		स्विग्धास्पद दीप्तिमापक
Photometer, rotating sector.		घूर्णवृत्तखंड दीप्तिमापक
Photometer, shadow	...	छायादीप्तिमापक
Photometer, wedge	...	टंक-दीप्तिमापक
Photometry	...	दीप्तिमापन
Photomicrograph	...	सूक्ष्मचित्रक
Photomicrography	...	सूक्ष्मचित्रण
Photophone	...	प्रकाशवाद्य
Phototyping	...	प्रकाशमुद्रण
Photozincography	..	यशद चित्रण
Physical	...	भौतिक
Physicist	...	भौतिकज्ञ

Physics	...	भौतिक विज्ञान
Picture	...	चित्र, तस्वीर
Piezometer	...	द्रव्यसंपीड्यतामापक
Pigment	...	वर्णक
Pile of plates	...	पट्टराशि
Pile, voltaic	...	वोल्टीय राशि
Pilot lamp	...	सूचक लम्प
Pint	...	पाइंट
Pipe	...	नल, नली
Pipette	...	पिपेट
Piston	...	पिस्टन
Piston-pump	...	पिस्टन पम्प
Pitch	...	सुर, आवृत्ति
Pitch (a substance)	...	पिच
Pitch, absolute	...	निरपेक्ष आवृत्ति
Pitch (of screw)	...	चूड़ी
Pitot's tube	...	पिटोट नलिका
Pivot	...	चुल
Pivoted	...	चूलदार
Plan	...	मानचित्र
Plane (adjective)	...	समतल
Plane (noun)	...	समतल
Plane, focal	...	नाभितल
Plane, principal	...	मुख्य तल
Plane, unit	...	एकांकतल
Planet	...	ग्रह
Planetary	...	ग्रहीय
Planetary motion	...	ग्रहगति
Planimeter	...	क्षेत्रफल मापक
Plano-concave	...	समनतोदर
Plano-convex	...	समोन्नतोदर
Plant (machinery)	...	यंत्र

Plastic	...	मज्ज
Plasticity	...	मज्जता
Plate	...	पट्ट, पट्टिका
Plate (photo.)	...	प्लेट
Platinoid	...	प्लेटिनायड
Pliability	...	नम्यता
Pliable	...	नम्य
Plot (a curve)	...	अंकित करना
Pluck (a string)	...	संकर्षण करना
Plucked string	...	संकुष्टतार
Plucking	...	संकर्षण
Plug	...	डाट
Plug (electrical)	...	प्लग
Plumb-bob	...	साहुल का लटकन
Plumb-line	...	साहुलसूत्र
Plummet	...	साहुल का लटकन
Plus	...	धन
Pneumatics	...	वायवीय यंत्र
Pneumatic	...	वायवीय
Pneumatic trough	...	द्रोणी
Point	...	बिन्दु
Point	...	नोक
Point, cardinal	...	विशिष्ट बिन्दु
Point, focal	...	नाभि बिन्दु
Point, nodal	...	नतिहीनबिन्दु
Point, principal	...	मुख्य बिन्दु
Point of support	...	आधार बिन्दु
Pointed	...	नोकदार
Pointer	...	निर्देशक
Polar	.	ध्रुवीय
Polarimeter	...	ध्रुवनमापक
Polarisation (light)	...	ध्रुवन

Polarisation (of cell)	...	ध्रुवाच्छादन
Polariscope	...	ध्रुवन दर्शक
Polarise	...	ध्रुवित करना
Polarise	...	आच्छादित ध्रुव होना
Polarised (magnetism)	...	ध्रुवीकृत
Polarised (cell)	...	आच्छादित ध्रुव
Polarised (light)	...	ध्रुवित
Polarised relay	...	ध्रुवीकृत पुनर्विवेक
Polarised, circularly	...	वृत्त-ध्रुवित
Polarised, elliptically	...	दीर्घ वृत्त-ध्रुवित
Polarised, partially	...	अंश-ध्रुवित
Polarised plane	...	सम-ध्रुवित
Polariser	...	ध्रुवनकारी
Polarising microscope	...	ध्रुवन-सूक्ष्मदर्शक
Polarity	...	ध्रुवत्व
Pole (of a cell)	...	ध्रुव
Pole (of a crystal face)	...	ध्रुव
Pole (geographical)	...	ध्रुव
Pole (of a magnet)	...	ध्रुव
Pole (of a mirror)	...	ध्रुव
Pole (the star)	...	ध्रुव तारा
Pole, consequent	...	उपध्रुव
Pole, north	...	उत्तर ध्रुव
Pole, north-seeking	...	उत्तराभिगामी ध्रुव
Pole, south	...	दक्षिण ध्रुव
Pole, south-seeking	...	दक्षिणाभिगामी ध्रुव
Pole, negative	...	ऋण ध्रुव
Pole, positive	...	धन ध्रुव
Pole-finding paper	...	ध्रुवदर्शक पत्र
Pole-piece	...	ध्रुवखंड
Pole-strength	...	ध्रुव-प्रबलता
Pole-star	...	ध्रुवतारा

Polish	...	पाखिरा करना
Polished	...	पाखिरा किया हुआ
Polyatomic	...	बहु परमाणुक
Polyphase	...	बहुकक्षीय
Porcelain	...	चीनी मिट्टी
Porcelain basin	...	चीनी का प्याला
Pore	...	सुषि
Porosity	...	सुषिरता
Porous	...	सुषिर
Position	...	स्थान
Positive	...	धन, अनात्मक
Post-office box	...	पोस्ट आफिस बक्स
Potential	...	विभव
Potential difference	...	विभवान्तर
Potential energy	...	स्थितिज शक्ति
Potentiometer	...	विभवमापक
Pound (lb.)	...	पाउंड
Poundal	...	पाउंडल
Powder	...	चूर्ण
Powder	...	चूर्ण करना
Power (dynamics)	...	सामर्थ्य
Power (maths.)	...	घात
Power (of a lens)	...	बलता
Power, absorbing	...	शोषकता
Power, candle	...	बत्तीबल
Power, dispersive	...	वर्ण विरलेषकता
Power, horse—	...	अश्व-सामर्थ्य
Power, illuminating	...	प्रदीपन शक्ति
Power, lifting	...	उत्थापक बल
Power, magnifying	...	अभिवर्धकता
Power, radiating	...	विकीर्णकता
Power, reflecting	...	परावर्तकता

Power, resolving	...	पृथग्दर्शकता
Power, rotatory	...	ध्रुवन घूर्णत्व
Power-factor	...	सामर्थ्य गुणक
Power of accommodation	...	संविधान क्षमता
Practical	...	प्रायोगिक, प्रयोगात्मक
Precession	...	अग्रगति, अयनचलन
Precipitate	...	अवक्षेप
Precipitate	...	अवक्षिप्त होना
Precipitation	...	अवक्षेपण
Presbyopia	...	जरादृष्टि
Pressure	...	दाब
Pressure, atmospheric	...	वायुदाब
Pressure, centre of	...	दाब-केन्द्र
Pressure, difference of	...	दाब का अन्तर
Pressure, high	...	उच्च दाब
Pressure, low	...	न्यून दाब
Pressure, normal	...	प्रमाणदाब
Pressure, partial	...	आंशिक दाब
Pressure, standard	...	प्रमाण दाब
Pressure gauge	...	दाब प्रमापक
Primary	...	प्राथमिक
Primary colors	...	मूल रंग
Primary coil	...	प्रथम वेष्टन
Prime (number or factor)	...	अभाज्य संख्या
Prime conductor	...	प्रधान चालक
Prime meridian	...	प्रमाणयाम्योत्तर
Prime mover	...	इंजन, मूल प्रेरक
Principal	...	मुख्य
Principle	...	सिद्धान्त
Print	...	छापना
Print (photo.)	...	चित्र
Prism (general)	...	समपार्श्व

Prism, triangular	...	त्रिपार्श्व
Prism, constant deviation.	...	स्थिर विचलन समपार्श्व
Prism, bi—	...	द्विक त्रिपार्श्व
Prism, double image	...	द्विदर्शक समपार्श्व
Prism, equilateral	...	समत्रिभुजी त्रिपार्श्व
Prism, Nicol	...	निकल समपार्श्व
Prism, right-angled	...	समकोणी त्रिपार्श्व
Prisms, achromatic combination of—.	...	त्रिपार्श्वों का अचर्याक संयोग
Prism, totally reflecting	...	पूर्णपरावर्तक त्रिपार्श्व
Prismatic	...	त्रिपार्श्वीय
Prismatic binoculars	...	त्रिपार्श्वीय द्विनेत्री ( दूरबीन )
Prismatic compass	...	त्रिपार्श्वीय दिक्सूचक
Problem (general)	...	समस्या, प्रश्न
Problematical	...	समस्यात्मक, संशयात्मक
Process	...	विधि
Progressive wave	...	प्रगतिशील तरंग
Project	...	प्रक्षेप करना
Projectile	...	प्रक्षेप्य
Projecting lens	...	प्रक्षेपक लेंस
Projection, (geometry)	...	प्रत्यालेख
Projection (optical)	...	चित्र-प्रक्षेपण
Projection lantern	...	चित्रदर्शक लालटैन
Prolate spheroid	...	उष्वाच उपगोल
Prong (of turning fork)	...	भुजा ( द्विभुजकी )
Proof	...	प्रमाण, सिद्धि
Proof-plane	...	परीक्षा पट्टिका
Propagation	...	गमन
Propel	...	चलाना
Propeller	...	क्षेपणी
Property	...	गुण

Proportion	...	अनुपात
Proportional	...	अनुपाती
Proportional, directly	...	अनुक्रमानुपाती
Proportional, inversely	...	उत्क्रमानुपाती
Proportionate	...	अनुपाती
Proportionately	...	यथानुपात
Proton	...	प्रोटन
Protractor	...	कोणमापक
Pull	...	खिंचाव, कर्षण
Pulley	...	घिरनी
Pulley, differential	...	युगल घिरनी
Pulleys, system of	...	घिरनियों की श्रेणी
Pulsating	...	स्पंदित
Pulsation	...	स्पंदन
Pulsatory	...	स्पंदीय
Pulse (wave)	...	स्पंद
Pump	...	पम्प
Pump, air	...	वायु पम्प
Pump, centrifugal	...	केन्द्रापसारक पम्प
Pump, condensation	...	द्रवीभवन ,,
Pump, diffusion	...	व्यापन ,,
Pump, filter	...	निःस्यन्दक ,,
Pump, force	...	बल ,,
Pump, hand	...	हाथ ,,
Pump, lift	...	उत्थापक ,,
Pump, molecular	...	अणुक ,,
Pump, oil	...	तैल ,,
Pump, piston	...	पिस्टन ,,
Pump, rotary	...	चक्र ,,
Pump, suction	...	चूषक ,,
Pump, vacuum	...	शून्यकारक ,,
Pump, water	...	जल ,,



Pump out	...	पम्प से निकाल लेना
Pump, receiver of	...	शून्य आगार
Puncture	...	छिद्र, छेद, सूराख
Puncture	...	छेद करना
Pupil (of the eye)	...	तारा
Pure	...	शुद्ध
Pure science	...	तात्त्विक विज्ञान
Purification	...	शोधन
Purify	...	शुद्ध करना
Purity	...	शुद्धता
Push	...	धक्का
Pycnometer	...	द्रव घनत्वमापक
Pyramid	...	सूचीस्तंभ
Pyramid, triangular	...	त्रिकोणाधार सूचीस्तंभ
Pyrheliometer	...	सूर्यतापमापक
Pyrometer	...	उग्रताप मापक
Pyrometer, optical	...	प्रकाशीय उग्रतापमापक
Pyrometer, radiation	...	विकिरण उग्रतापमापक
Quadrant	...	पाद
Quadrant electrometer...	...	पाद विद्युन्मापक
Quadruplet	...	चतुष्क
Quality	...	गुण
Quality (of sound)	...	रूप
Quantity	...	मात्रा, परिमाण
Quantity (maths.)	...	राशि
Quantum	...	क़ांटम
Quart	...	क्वार्ट
Quarter	...	चतुर्थांश
Quarter wave plate	...	तरंग चतुर्थांश पट्ट
Quasi-homogeneous light	...	एक वर्णाभास प्रकाश
Rack and pinion	...	दंडचक्री
Radian	...	रेडियन

Radiant energy	...	विकीर्ण शक्ति
Radiant heat	...	विकीर्ण ताप
Radiation	...	विकिरण
Radiate	...	विकीर्ण करना
Radiating power	...	विकीर्णकता
Radiator	...	विकीर्णक
Radio	...	रेडियो
Radio active	...	रेडियम धर्मी
Radio activity	...	रेडियम धर्मिता
Radiogram	...	एक्स किरण चित्र
Radiography	...	एक्स किरण चित्रण
Radiometer	...	विकिरण मापक
Radiomicrometer	...	सूक्ष्म विकिरण मापक
Radius	...	त्रिज्या
Radius of gyration	...	घूर्ण त्रिज्या
Radius vector	...	दिक् त्रिज्या
Rain	...	वृष्टि, वर्षा, मेह
Rain	...	वर्षा होना, बरसना
Rainbow	...	इन्द्रधनुष
Rainbow, primary	...	प्राथमिक धनुष
Rainbow, secondary	...	द्वैतीयिक धनुष
Rainbow, supernumerary	...	उपधनुष
Range (of instrument)	...	अवधि
Range (of a projectile)	...	पहुँच, मार
Range, double—	...	युग्मावधि
Range, multi—	...	अनेकावधि
Range, single—	...	एकावधि
Range, triple—	...	त्रयावधि
Rare	...	विरल, दुर्लभ
Rare, optically	...	प्रकाश विरल
Rarefaction	...	विरलता
Rate	...	दर, क्रम

Rated	...	निर्धारित
Ratio	...	विषय
Ray, alpha	...	आल्फा किरण
Ray, beta	...	बीटा किरण
Ray, cathode	...	कैथोड किरण
Ray, cosmic	...	विश्व किरण
Ray, delta	...	डेल्टा किरण
Ray, extraordinary	...	असाधारण किरण
Ray, gama	...	गामा किरण
Ray, ordinary	...	साधारण किरण
Ray, Rontgen	...	रंजन किरण, ऐक्स किरण
Ray, X—	...	ऐक्स किरण, रंजन किरण
Ray-velocity	...	किरण-वेग
Ray-velocity, axis of single—	of	अक्ष किरणवेग का अक्ष
Reactance	...	प्रतिकर्तृत्व
Reaction	...	प्रतिक्रिया, प्रतिफल
Reactive	...	प्रतिकर्त्ता
Read	...	पढ़ना
Reading	...	पाठ
Reading, to take a—	...	पाठ लेना
Real	...	वास्तविक
Recalescence	...	पुनरुज्ज्वलन
Receiver	...	ग्राहक
Receiver (of Radio)	...	ग्राहक
Receiver (of a pump)	...	शून्यसागर
Reciprocal (maths.)	...	व्युत्क्रान्त
Reciprocal (observations)	...	परस्परानुवर्ती अवलोकन
Reciprocating (engine or motion).	...	इतस्तोगामी
Recomposition	...	पुनर्संयोजन
Record (of a gramophone)	...	चूड़ा

Record (of observations)	...	लेख, अनुलेख
Recording cylinder	...	अनुलेखक बेलन
Recording instrument	...	अनुलेखक यंत्र
Rectangular	...	आयताकार
Rectangular axes	...	समकोणिक अक्ष
Rectifier	...	सरलकारक
Rectilineal	...	सरल रेखात्मक
Rectilinear	...	सरल रेखात्मक
Rectilinear lens	...	तथ्यदर्शक लेंस
Red	...	लाल
Red heat	...	रक्त ताप
Red hot	...	ताप रक्त
Reduce	...	छोटा करना
Reduced	...	लघ्वीकृत
Reduction	...	लघ्वीकरण
Reduction factor (of a galvr.).	...	गणनागुणक
Reed	...	जिह्वाल
Reed, free	...	मुक्त जिह्वाल
Reed-instrument	...	जिह्वाल वाद्य
Reed-pipe	...	जिह्वाल सुषिर
Reed, striking	...	प्रहार जिह्वाल
Reed, tongue of	...	जिह्वाल की जिह्वा
Reel	...	रील
Reflect	...	परावर्त्तन करना, परावर्त्तित करना
Reflected	...	परावर्त्तित
Reflecting power	...	परावर्त्तकता
Reflecting surface	...	परावर्त्तक तल
Reflecting telescope	...	परावर्त्तन दूरबीन
Reflection	...	परावर्त्तन
Reflection, internal	...	आन्तरिक परावर्त्तन
Reflection, metallic	...	धातवीय परावर्त्तन

Reflection, regular	...	नियमित परावर्तन
Reflection, selective	...	विशिष्ट परावर्तन
Reflection, total	...	पूर्ण परावर्तन
Reflectivity	...	परावर्तकता
Reflector	...	परावर्तक
Refract	...	वर्तन करना, वस्तुतः करना
Refracted	...	वस्तुतः
Refracting surface	...	वर्तक तल
Refracting telescope	...	वर्तन दूरबीन
Refraction, conical	...	शंकवीय वर्तन
Refraction, internal conical.		अन्तःशंकवीय वर्तन
Refraction, external conical.		वहिःशंकवीय वर्तन
Refraction, double	...	द्विवर्तन
Refractive index	...	वर्तनांक
Refractive index, absolute.		परम वर्तनांक
Refractivity	...	वर्तकता
Refractometer	...	वर्तनांक मापक
Refrangibility	...	वर्तनीयता
Refrangible	...	वर्तनीय
Refrigeration	...	हिमीकरण
Refrigerator	...	हिमीकारक
Regelation	...	पुनर्घनीभवन
Regulate	...	नियंत्रित करना
Regulated	...	नियंत्रित
Regulating resistance	...	नियंत्रक प्रतिरोध
Regulation	...	नियंत्रण
Regulator	...	नियंत्रक
Reinforce	...	संकरण
Reject (heat)	...	त्याग करना

Rejector circuit	...	निराकरण कुंडली
Relative	...	आपेक्षिक
Relative density	...	आपेक्षिक घनत्व
Relativity	...	अपेक्षा वाद
Relay (in broadcasting)	...	पुनर्निवेशन करना
Relay (used in telegraphy)	...	पुनर्निवेशक
Release	...	उन्मोचन
Reluctance	...	प्रतिबंध
Reluctivity	...	प्रतिबंधकत्व
Remnant	...	अवशिष्ट
Repel	...	प्रतिसारित करना
Replace	...	स्थानापन्न होना
Replacement	...	स्थानापत्ति
Represent (in a figure)	...	प्रतिदर्शित करना
Representation	...	प्रतिदर्शन
Representation, graphic	...	आलेख्य प्रतिदर्शन
Repulsion	...	प्रतिसारण
Reservoir	...	टंकी
Residual	...	अवशिष्ट
Resist	...	प्रतिरोध करना
Resistance	...	प्रतिरोध
Resistance-box	...	प्रतिरोध बक्स
Resistance, fixed	...	अपरिवर्त्य प्रतिरोध
Resistance, lamp	...	लम्प प्रतिरोध
Resistance, liquid	...	द्रव प्रतिरोध
Resistance, sliding	...	विसर्पी प्रतिरोध
Resistance, specific	...	विशिष्ट प्रतिरोध
Resistance, variable	...	परिवर्त्य प्रतिरोध
Resistivity	...	प्रतिरोधकता
Resolution (of forces)	...	(बल) विश्लेषण
Resolution (optics)	...	पृथग्दर्शन
Resolve (a force)	...	विश्लेषण करना

Resolve (optics)	...	पृथक् दर्शन करना
Resolved part	...	विरलित भाग
Resolving power	...	पृथग्दर्शकता
Resolving power, high	...	उच्च पृथग्दर्शकता
Resolving power, low	...	निम्न पृथग्दर्शकता
Resonance	...	अनुनाद
Resonance-box	...	अनुनादी बक्स
Resonant	...	अनुनादी
Resonator	...	अनुनादक
Respective	...	क्रमिक
Respectively	...	क्रमशः, यथाक्रम
Respond	...	अनुयोजन करना
Response	...	अनुयोजन
Rest	...	विराम
Resting point	...	विरामबिन्दु
Restitution	...	प्रत्यानयन
Restitution, force of	...	प्रत्यानयन बल
Restoring force	...	प्रत्यानयन बल
Result	...	परिणाम
Resultant (force, velocity, etc.).	...	संयुक्त परिणाम, लब्ध परिणाम
Retain	...	कायम रखना
Retard	...	रोकना
Retardation	...	ह्रास
Retardation, path—	...	मार्ग-ह्रास
Retentive power	...	धारणा
Retentivity	...	धारणा
Retina	...	कृष्ण पटल
Retort-stand	...	रिटार्ट-उपस्तंभ
Retouch (photo.)	...	पुनः स्पर्शन
Return-wire	...	प्रत्यागामी तार
Reversal	...	उत्क्रमण

Reverse (adj.)	...	उत्क्रान्त
Reverse (verb)	...	उत्क्रमण करना
Reversibility	...	उत्क्रमणीयता
Reversible	...	उत्क्रमणीय
Revolution	...	परिक्रमा, परिक्रमण
Revolve	...	परिक्रमा करना
Rheostat	...	नियंत्रक प्रतिरोध
Rhomb Fresnel's	..	फ़्रेनेल का समचतुर्भुज सम पार्श्व
Rider	...	आरोही
Right-angled prism	...	समकोणिक त्रिपार्श्व
Rigid	...	दृढ़
Rigidity	...	आकार-स्थापकत्व, दृढ़ता
Ring	...	वलय, कुंडल, कुंडली
Ringshaped	...	वलयाकार, कुंडलाकार
Ripple	...	ऊर्मि
Rocker	...	अवदोलक
Rod	...	दंडिका, छड़, डंडा
Roller	...	बेलन
Rosin	...	सूखा बिरोजा
Rotary convertor	...	घूर्ण परिवर्तक
Rotary pump	...	चक्र-पम्प
Rotate	...	घूमना, घुमाना
Rotating drum	...	परिभ्रामक बेलन
Rotation	...	परिभ्रमण, घूर्णन
Rotation, specific	...	विशिष्ट ध्रुवन घूर्णत्व
Rotatory	...	घूर्णक
Rotatory motion	...	परिभ्रमण गति
Rotatory polarisation	...	घूर्ण ध्रुवन
Rotatory power	...	ध्रुवन घूर्णत्व
Rotor	...	परिभ्रामक
Rough	...	खुरदरा, रूख
Roughness	...	खुरदरापन, रूखता



Round	...	गोल
Row	...	पंक्ति
Rubber	...	रबड़
Rubber, India--	...	रबड़
Rule	...	विधान, नियम
Rule (verb)	...	रेखांकित करना
Rulings	...	रेखाये'
Running (of machine)	...	चलना, चलाना
Running order	...	चालू अवस्था
Saccharimeter	...	शर्करा मापक
Safety-lamp	...	अभय दीप
Safety-valve	...	अभयवाहव
Sag	...	लटकाव
Sagitta (maths.)	...	शर
Sagittal section	...	माध्यमिक परिच्छेद
Sample	...	नमूना
Sand	...	वालू, बालुका
Sand-bath	...	बालु का उत्पक
Sand-paper	...	रेग माल
Satellite (of a planet)	...	उपग्रह
Satellite (of a spectrum line)	...	उपरेखा
Saturate	...	संतृप्त करना
Saturated	...	संतृप्त
Saturation	...	संतृप्ति
Saturation, super—	...	अतिसंतृप्ति
Scalar quantity	...	दिग्विहीनरांशि
Scale (measuring rod)	...	स्केल
Scale (balance)	...	तराजू
Scale (of temp, etc.)	...	क्रम
Scale, diatonic	...	युगल स्वर ग्राम
Scale, diagonal	...	कर्ण-स्केल
Scale, meter	....	मीटर स्केल

Scale, musical	...	स्वर-प्राप्त
Scale, tempered (music)	...	संस्कृत प्राप्त
Scalepan	...	पलड़ा
Scatter	...	परिक्षेप करना
Scattered	...	परिक्षिप्त
Scattering	...	परिक्षेपण
Science	...	विज्ञान
Scientific	...	वैज्ञानिक
Scientist	...	वैज्ञानिक
Scintillate	...	जगमगाना
Scintillation (the act)	...	जगमगाहट
Scintillation (flash)	...	जगमग
Screen	...	परदा
Screw	...	पेच
Screw-gauge	...	पेचदार प्रमापक
Screw-head	...	पेच का सिर
Screw-thread	...	पेच की चूड़ी
Screw, pitch of	...	पेच की चूड़ी
Sea	...	समुद्र
Sea-breeze	...	सिंधुसमीर
Sea-level	...	सिंधु पृष्ठ
Second (time)	...	सैकंड
Second (angle)	...	त्रिकला
Secondary	...	द्वैतीयिक
Secondary	...	गौण, अप्रधान
Secondary action	...	गौण क्रिया
Secondary axis	...	गौण अक्ष
Secondary battery	...	संघायक बैटरी
Secondary cell	...	संचायक सेल
Secondary coil	...	द्वैतीयिक वेष्टन
Secondary property	...	गौण गुण
Section	...	परिक्षेद

Section, cross	...	परिच्छेद
Section, principal	...	मुख्य परिच्छेद
Sector	...	वृत्त खंड
Sector, rotating	...	घूर्ण्य वृत्तखंड
Secular variation	...	दैर्घकालिक परिवर्तन
Selenium cell	...	सिलीनियम सैल
Self-acting	...	आत्मचालित
Self-excitation	...	आत्मोत्तेजन
Self-excited dynamo	...	आत्मोत्तेजित डायनमो
Self-inductance	...	आत्मोपपादकरत्व
Self-induction	...	आत्मोपपादन
Self-luminous	...	आत्मदीप्त
Semi-permeable	...	अर्ध प्रवेश्य
Semi-tone	...	टोनार्ध
Sensation	...	संवेदन
Sense	...	इंद्रिय
Sensibility	...	सुग्राहकता
Sensitise	...	आलोकग्राही बनाना
Sensitised	...	आलोकग्राही बनाया हुआ
Sensitive	...	सुग्राहक, नाजुक
Sensitive flame	...	शब्ददर्शक ज्वाला
Sensitive paper	...	आलोकग्राही कागज़
Sensitiveness	...	सुग्राहकता
Sensitivity:	...	सुग्राहकता
Separate (adj.)	...	पृथक्
Separate(verb)	...	पृथक् करना
Separation	...	पृथक्करण
Septet	...	सप्तक
Series	...	माला
Series (of spectrum lines)	...	रेखा श्रेणी
Series, connected in	...	श्रेणीबद्ध
Series spectra	...	श्रेणिक वर्णपट

Series wound	...	श्रेणी वेष्टित
Sextant	...	सैक्स्टांट
Sextet	...	षट्क
Shade	...	छाया
Shade (of colour)	...	आभा
Shadow	...	छाया
Shaft	...	धुरा दंड
Shank (of tuning fork)	...	दंड
Shape	...	आकृति
Sharp	...	तीखा
Sharp (note)	...	तीघ्र
Sharpness of tuning	...	स्वरमेल का प्रकर्ष
Shavings	...	छीलन
Shear	...	विरूपण
Shearing stress	...	विरूपक चांप
Sheet	...	चादर
Shell	...	कवच
Shellac	...	चपड़ा
Shellac varnish	...	चपड़े का वार्निश
Shine	...	चमकना
Shining	...	चमकदार
Short circuit	...	छुद कुंडलित करना
Short-sight	...	निकट-दृष्टि
Short-sighted	...	निकट-दृष्टि
Shrill note	...	तार स्वर, तीखा सुर
Shunt (noun)	...	पार्श्ववाहक
Shunt (verb)	...	पार्श्वबद्ध करना
Shunt-wound	...	पार्श्ववेष्टित
Sidereal	...	नाक्षत्रिक
Siderostat	...	नाक्षत्रस्थापक
Sight	...	दृष्टि
Sight, line of	...	दृष्टि-रेखा

Silence	...	नीरवता
Similar (figure)	...	समानरूपी
Similarity	...	समानता, समानरूपिता
Simmer	...	सिमसिमाना
Simple harmonic motion		सरल आवर्तगति
Simple microscope	...	सरल सूक्ष्मदर्शक
Single-phase	...	एककलीय
Single-pole (switch)	...	एकपक्षी स्विच
Siphon	...	साइफ़न
Siphon out	...	साइफ़न के द्वारा निकालना
Siren	...	सायरन
Siren, double	...	द्विक सायरन
Size	...	विस्तार
Skin effect	...	त्वाचिक प्रभाव
Sky	...	आकाश
Slanting	...	तिरछा
Slate	...	स्लेट
Slide, lantern	...	स्लाइड
Slide-carrier	...	स्लाइड धारक
Slide, dark	...	प्लेट धारक
Slide rule	...	विसर्पी गणक
Sliding resistance	...	विसर्पी प्रतिरोध
Sliding friction	...	विसर्पी घर्षण
Slip	...	स्खलन
Slip ring	...	स्खलन-वलय
Slit	...	फ़िरी
Slope	...	ढाल
Sloping	...	ढालू
Slot	...	खाँच
Slotted	...	खाँचदार
Smoke	...	धुआँ, धूँ
Smoky	...	धूँदार

Sound, vowel	...	स्वर शब्द
Sound-board	...	अनुनाद पट्ट
Sounder, morse	...	मोर्सग्राहक
Sounding	...	शब्दायमान
Source	...	उद्गम
Source, extended (light)...		विस्तृत दीपक
Source, point (light)	...	बिन्दु दीपक
Source of light	...	दीपक
Space	...	आकाश, स्थान
Space, four dimensional		चतुर्धा विस्तृत आकाश
Space, three dimensional		त्रिधा विस्तृत आकाश
Spacial	...	आकाशीय
Spark	...	स्फुल्लिंग, चिनगारी
Specific gravity	...	विशिष्ट घनत्व
Specific gravity bottle	...	घनत्व बोतल
Specific heat	...	आपेक्षिक ताप
Specific inductive capacity.		विशिष्ट उपपादकत्व
Specific resistance	...	विशिष्ट प्रतिरोध
Specific rotation	...	विशिष्ट ध्रुवन घूर्णत्व
Spectral	...	वर्णपटीय
Spectral line	...	वर्णपट रेखा
Spectrometer	...	वर्णपट
Spectrophotometer	...	वर्णपट दीप्ति मापक
Spectroscope	...	वर्णपट दर्शक
Spectroscope, direct vision.		समस्त दृष्टि वर्णपट दर्शक
Spectroscopic	...	वर्णपटीय
Spectrum	...	वर्णपट
Spectrum, absorption	...	शोषण वर्णपट
Spectrum, arc	...	आर्क वर्णपट
Spectrum, band	...	गंठेदार वर्णपट

Spectrum, continuous ...	अविच्छिन्न वर्णपट
Spectrum, emission ...	स्कंदन वर्णपट।
Spectrum, enhanced ...	आयन वर्णपट
Spectrum, fluted ...	गंडेदार वर्णपट
Spectrum, line ...	रेखामय वर्णपट
Spectrum, normal ...	आदर्श-वर्णपट
Spectrum, pure ...	शुद्ध वर्णपट
Spectrum series ...	श्रेणीमय वर्णपट
Spectrum, solar ...	सौर वर्णपट
Spectrum, spark ...	स्फुल्लिंग वर्णपट'
Spectrum, stellar ...	नाक्षत्रिक वर्णपट
Spectrum-analysis ...	वर्णपटीय विश्लेषण
Speed ...	चाल
Speed (of photographic plate)	सुग्राहकता
Speed counter ...	चाल मापक
Speed indicator ...	चाल सूचक
Speed recorder ...	चाल लेखक
Sphere ...	गोल
Spherical ...	गोलीय, गोल
Spherical lens ...	गोलीय लेंस
Sphero-cylindrical lens ...	बेलन गोलीय लेंस
Spheroid ...	उपगोल
Spheroid, oblate ...	निम्नाक्ष उपगोल
Spheroid, prolate ...	उच्चाक्ष उपगोल
Spheroidal state ...	उपगोल अवस्था
Spherometer ...	गोल मापक
Spindle ...	तकुआ
Spinthariscopes ...	स्फुरण दर्शक
Spiral ...	सर्पिल
Spirit-lamp ...	स्पिरिट लम्प
Spirit-level ...	सैतिज तल दर्शक
Split up ...	विभक्त होना, विभक्त करना

Split-phase	...	विभक्त कला
Spring	...	कमानी
Spring-balance	...	कमानीदार काँटा
Spout	...	टोंटी
Square (figure)	...	वर्ग
Square (2nd power)	...	वर्ग
Square centimetre, etc.	...	वर्ग सेंटी मीटर इत्यादि
Squared paper	...	वर्गीकृत पत्र
Square root	...	वर्गमूल
Squirrel-cage motor	...	पिंजर मोटर
Stability	...	स्थायित्व
Stable	...	स्थायी
Stage (of a microscope)	...	मंच
Stages (of a process)	...	स्थिति अवस्था, अवस्थान, पद, उपक्रम
Stand	...	उपस्तंभ
Standard (noun)	...	प्रमाण
Standard (adj.)	...	प्रमाण
Standard solution	...	निर्णीत विलयन
Standardisation	...	प्रमितकरण
Standardise	...	प्रमित करना
Standardised	...	प्रमित
Starter	...	प्रवर्तक
State	...	अवस्था
State, change of	...	अवस्था परिवर्तन
Statics	...	स्थिति विज्ञान
Stationary	...	स्थावर
Stationary undulation	...	स्थावर आन्दोलन
Stationary wave	...	स्थावर तरंग
Stator	...	अचल
Steam	...	भाप, वाष्प
Steam-bath	...	वाष्प ऊष्मक
Steam-engine	...	भाप का इंजन



Steam-line	...	वाष्परेखा
Steam-trap	...	वाष्पकूट
Steel	...	इस्पात
Steel, cast	...	ढलर्वा इस्पात
Steel, magnetic	...	चुम्बकीय ,,
Steel, mild	...	नरम ,,
Steel-tool	...	औज़ारी ,,
Steel-yard	...	विषमभुज तुला
Stem	...	डंडी
Step, in	...	सविक्रमगामी
Step, out of	...	अविक्रमगामी
Stereoscope	...	सैरबीन
Stiff	...	कड़ा
Stiffness	...	कड़ापन
Still	...	भपका
Stirrer	...	विलोलक
Philosopher's stone	...	पारस पत्थर
Stop-cock	...	रोधनी
Stop-watch	...	विराम घड़ी
Stopper	...	डाट
Storage cell	...	संचायक सैल
Stove	...	स्टोव
Straight line	...	सरल रेखा
Strain (elasticity)	...	विक्रिया °
Strain (general)	...	छानना
Strata	...	स्तर
Stratum	...	स्तर
Stray	...	भ्रान्त
Strength (gen.)	...	प्रबलता
Strength (magnet)	...	प्रबलता
Strength (material)	...	मज़बूती
Strength (solution)	...	अवधारणा

Stress	...	चाँप
String (musical inst.)	...	तार, डोरी
String, bowed	...	गज्रवादित तार
String, plucked	...	संकृष्ट ,,
String struck	...	आहत ,,
Strip	...	पत्ती
Stroboscopic method	...	विच्छिन्न दर्शन विधि
Strong	...	प्रबल
Strong solution	...	समाहृत विलयन
Structure	...	रचना
Structural	...	रचनात्मक
Stud	...	बटन
Subdivide	...	प्रविभाजित करना, प्रविभाजन करना,
Subdivision	...	प्रविभाग, प्रविभाजय
Subdominant (music)	...	मध्यम
Subjective	...	आरंभगत
Sublimation	...	उद्भूतन
Sublime	...	उद्भूतित होना या करना
Submultiple	...	अपवर्त्तक
Substage condenser	...	अधोमंच संप्राहक
Substance	...	पदार्थ
Substitute (adj.)	...	स्थानापन्न
Substitute (verb)	...	स्थानापन्न करना
Substitution	...	स्थानापत्ति
Successive	...	उत्तरोत्तर
Successively	...	उत्तरोत्तर
Suction	...	चूषण
Suction-pump	...	चूषक पंप
Summational tone	...	संयोजित सुर
Sun	...	सूर्य
Sun-dial	...	भूप चढ़ी
Sunspot	...	सूर्य का धब्बा

Super-cooled	...	अतिशीतलीकृत
Super-cooling	...	अतिशीतलीकरण, अतिशीतलीभवन
Superficial	...	पृष्ठदेशीय, पृष्ठीय
Superheated	...	अतितप्त
Superposition	...	अधिष्ठापन
Supersaturation	...	अतितृप्ति
Supply	...	उपस्थापना
Support	...	आलम्बन
Suppose	...	कल्पना करना
Supposition	...	कल्पना
Surface	...	पृष्ठ
Surface, curved	...	वक्रतल
Surface, plane	...	समतल
Surface of separation	...	पार्थक्य तल
Surface-energy	...	पृष्ठ-शक्ति
Surface-tension	...	पृष्ठ-वितति
Susceptibility	...	प्रवृत्ति
Susceptibility, magnetic	...	चुम्बकीय प्रवृत्ति
Susceptible	...	प्रवृत्तिमान
Suspend	...	लटकाना, आस्रस्त करना
Suspended	...	लटका हुआ, आस्रस्त
Suspension	...	अवलम्बन
Suspension (particles)	...	आस्रसन
Suspension, point of	...	अवलम्बन बिन्दु
Swing	...	दोलन, आवर्तन
Switch	...	स्विच
Switch, double pole	...	द्विपक्षी स्विच
Switch, knife	...	छुरीदार स्विच
Switch, single pole	...	एकपक्षी स्विच
Switch, tumbler	...	टम्बलर स्विच
Switch-board	...	स्विच बोर्ड
Switch off	...	स्विच खोलना

Switch on	...	स्विच बन्द करना
Symbol	...	संकेत
Symbolical	...	सांकेतिक
Symmetrical	...	सममित, सममिताकार
Symmetry	...	सममिति
Synchronism	...	तुल्य कालत्व
Synchronise	...	तुल्यकालिक करना
Synchroniser	...	तुल्य कालकारी
Synchronising	...	तुल्य कालकारी
Synchronous	...	तुल्य कालिक
Synthesis	...	संश्लेषण
System	...	पद्धति
Table	...	सारिणी
Table, periodic	...	आवृत्ति सारिणी
Tabular arrangement	...	सारिणीबद्ध व्यवस्था
Tabulate	...	सारिणीबद्ध करना
Tantalus' cup	...	वासुदेव प्याला
Tap	...	टेप्टी
Tapering	...	गावदुम, गोपुच्छाकार
Tar	...	तारकोल, अलकतरा
Telegraphy	...	तारप्रेषण
Telegraphy, duplex	...	द्विमुखी तारप्रेषण
Telegraphy, multiplex	...	बहुमुखी तारप्रेषण
Telegraphy, wireless	...	तारहीन तारप्रेषण
Tele-microscope	...	दूर-सूक्ष्मदर्शक
Telephone	...	टेलीफोन
Telephone exchange	...	टेलीफोन संयोगालय
Telephonic	...	टेलीफोन का
Telephoto lens	...	दूर चित्रक लेंस
Telescope	...	दूरबीन
Telescope, astronomical	...	ज्योतिष दूरबीन
Telescope, binocular	...	द्विनेत्री "

Telescope, catoptric	...	परावर्त्तक दूरबीन
Telescope, dioptric	...	वर्त्तक ,,
Telescope, equatorial	...	निरक्षीय ,,
Telescope, Galilean	...	गलीलियन ,,
Telescope, Newtonian	..	न्यूटनीय ,,
Telescope, reflecting	...	परावर्त्तक ,,
Telescope, refracting	...	वर्त्तक ,,
Telescope, terrestrial	...	पार्थिव ,,
Telescopic	...	अन्तःसर्पी-
Television	...	दूरस्थ दर्शन
Temperament (music)	...	संस्कार
Temperament, equal (music).		समसंस्कार
Temperament, meantone		मध्यमानटोन संस्कार
Temper of steel (noun)	...	पानी, आब
Temper (verb)	...	पानी चढ़ाना, आब देना
Tempered scale (music)	...	संस्कृत ग्राम
Temperature	...	तापक्रम
Temperature, absolute	...	परम तापक्रम
Temporary	...	अल्पकालिक
Tenacious	...	तन्य, चिमड़ा
Tenacity	...	तन्यता
Tensile strength	...	वितानक्षमता
Tension	...	तनाव, वितति
Tension (electrical)	...	विभव
Tension, high-(electric)	...	उच्चविभव
Tension, low-(electric)	...	निम्न विभव
Tension, surface—	...	पृष्ठवितति
Tension, vapour—	...	वाष्पदाब
Tenthmeter	...	टेंथमीटर
Tepid	...	गुनगुना
Term	...	पारिभाषिक शब्द

Term (maths.)	...	पद
Terminal (adj.)	...	श्रुतिम
Terminal (binding screw)		संयोजक पेच
Terminate	...	अन्त होना, समाप्त होना
Test	...	जाँच
Theodolite	...	थियोडोलाइट
Theoretical	...	सैद्धान्तिक
Theory	...	सिद्धान्त
Therm	...	थर्म
Thermal	...	तापीय
Thermal capacity	...	तापसमावेशन
Thermal unit	...	तापीय एकांक
Thermion	...	तापायन
Thermonic valve	...	तापायनिक वाल्व
Thermocouple	...	तापविद्युत् युग्म
Thermo-dynamics	...	तापगतिविज्ञान
Thermo-electric	...	ताप-वैद्युत
Thermo-electric junction		ताप-वैद्युत संधि
Thermo-electric power	...	ताप-वैद्युतत्व
Thermo-electricity	...	ताप-विद्युत्
Thermograph	...	तापलेखक
Thermometer	...	तापमापक
Thermometer, clinical	...	शरीर तापमापक
Thermometer, constant pressure.		स्थिरदाब तापमापक
Thermometer, constant volume.		स्थिर आयतन तापमापक
Thermometer, fixed points of.		तापमापक के स्थिर बिन्दु
Thermometer, lower fixed point of.		तापमापक का अधः स्थिरबिन्दु
Thermometer, maximum		उच्चतम तापमापक

Thermometer, minimum	निम्नतम तापमापक
Thermometer, resistance	प्रतिरोध तापमापक
Thermometer, upper fixed point of.	तापमापक का स्थिर ऊर्ध्वबिन्दु
Thermometer, weight—	तेलन प्रसारमापक
Thermo-pile ...	ताप-वैद्युत पुंज
Thermoscope ...	तापदर्शक
Thermostat ...	तापस्थापक
Thickness ...	मोटाई
Third (musical interval) ...	तार्तीयिक निष्पत्ति
Third, major (music) ...	दीर्घ तार्तीयिक
Third, minor (music) ...	लघु तार्तीयिक
Thread (of screw) ...	चूड़ी
Three-phase ...	त्रिकला
Three-way (switch, etc.) ...	त्रिपथ
Three-wire system ...	त्रितार प्रणाली
Throw (of galvanometer) ...	प्रक्षेप
Thrust ...	दाब
Thunder ...	गर्जन
Thunder-clap ...	बिजली की कड़क
Thunder-storm ...	बिजली की आंधी
Timbre (sound) ...	रूप
Tin (verb) ...	कलई करना
Tin foil ...	टिन की पन्नी
Tinge ...	झलक
Tissue-paper ...	पतंगी कागज़
Ton ...	टन
Tone ...	सुर, टोन
Tone, combination ...	समवाय सुर
Tone, difference ...	वियोजित सुर
Tone, fundamental ...	मूल सुर
Tone, major ...	दीर्घ टोन

Tone, minor	...	लघु टोन
Tone, semi	...	टोनाधर्
Tone, summational	...	संयोजित सुर
Tonic (music)	...	वादी
Tonometer	...	द्विभुजीय सुरमापक
Tooth (of wheel)	...	दांत
Toothed wheel	...	दांतदार पहिया, दन्तुर चक्र
Torque	...	घूर्णक
Torriceilian vacuum	...	टारीसेलिय शून्य
Torsion	...	मरोड़
Torsion-balance	...	पेंडनतुला
Torsion-head	...	पेंडन टोपी
Torsion pendulum	...	पेंडन दोलक
Touch (noun)	...	स्पर्श
Touch, sense of	...	त्वाचशक्ति
Tough	...	चीमड़
Toughness	...	चिमड़ापन
Tourmaline	...	दुरमलीन
Tourmaline forceps	...	दुरमलीनी चिमटा
Tourmaline tongs	...	दुरमलीनी चिमटा
Trace (a curve)	...	खींचना
Trace (a map)	...	ट्रेस करना
Traces (a small quantity)	...	अंशमात्र
Traction	...	कर्षण
Tractive	...	कर्षक
Transform	...	रूपान्तर करना, रूप बदलना
Transformation	...	रूपान्तर
Transformer	...	परिणामक
Transformer, current	...	धारा परिणामक
Transformer, potential...	...	विभव ,,
Transformer, step down	...	अवरोही परिणामक
Transformer, step up	...	आरोही परिणामक



Transit (astronomy)	...	संक्रान्ति, याम्योत्तरगमन
Transit (of a pendulum)	...	संक्रान्ति
Transit-instrument	...	संक्रान्ति-यन्त्र
Transit-theodolite	...	संक्रान्ति-थियोडोलाइट
Transition	...	संक्रमण
Transitional period	...	संक्रमण काल
Transitional stage	...	संक्रमण की अवस्था
Translation (dynamics)	...	स्थानान्तराप्ति
Translational (dynamics)	...	स्थानान्तरीय
Translucence	...	पारभासकता
Translucent	...	पारभासक
Transmissibility	...	उत्तारकत्व, प्रेषकत्व
Transmission	...	उत्तारण, प्रेषण
Transmit	...	पार करना, उत्तारण करना, भेजना
Transmitter	...	प्रेषक
Transparency	...	पारदर्शकता
Transparent	...	पारदर्शक
Transpiration	...	पार श्वासन
Transport	...	प्रवाहण करना
Transport number	...	प्रवाहणांक
Transverse	...	अनुप्रस्थ
Transverse wave	...	अनुप्रस्थ तरंग
Travelling microscope	...	प्रनापक सूक्ष्मदर्शक
Treble (note)	...	तारस्वर
Trial experiment	...	आज़मायशी प्रयोग
Triangular file	...	तिकोनी रेती
Triangular prism	...	त्रिपार्श्व
Triple point	...	त्रिकबिन्दु
Triplet	...	त्रिक
Tripod	...	तिपाई
Trough (of a wave)	...	पाद
Trumpet	...	तुरही

Tube	...	नलिका, नली
Tube of force	...	बल नलिका
Tubular	...	नलिकाकार
Tune (noun)	...	तान
Tune (verb)	...	सुर मिलाना
Tuning fork	...	द्विभुज
Tuning fork, electrical	...	वैद्युत द्विभुज
Turn (noun)	...	फेरा
Turn (verb)	...	घूमना, घुमाना, मोड़ना
Turn	...	खरादना
Turnings	...	खरादन
Turpentine	...	तारपीन
Twilight	...	संध्याद्युति
Twinkle (noun)	...	किलमिल
Twinkle (verb)	...	किलमिलाना
Twist (verb)	...	मरोड़ना, बटना
Twist (noun)	...	मरोड़
Twisted	...	मरोड़ा हुआ, बटा हुआ
Two-phase	...	द्विकला
Two-way (switch)	...	द्विपथ
Two-wire system	...	द्वितार प्रणाली
Ultra-microscope	...	अतिसूक्ष्मदर्शक
Ultra-microscopic	...	अतिसूक्ष्मदर्शकीय
Ultra-violet	...	नीललोहितोत्तर
Umbra	...	प्रच्छाया
Unbalanced	...	असमतोलित
Underground	...	अन्तर्भौम
Undulation	...	तरंग, आन्दोलन
Undulatory	...	तरंगमय
Undulatory theory	...	तरंग सिद्धान्त
Uniaxial	...	एकाक्ष
Unidirectional	...	एकदिशावर्ती

Unifilar	...	एकसूत्री
Uniform	...	समरूप, सम
Uniformity	...	समता, समरूपता
Union	...	संयोग
Unison	...	स्वर का मेल, स्वरैक्य
Unit	...	एकांक
Unit (adj.)	...	एकांकी
Unit, absolute	...	परम एकांक
Unit, practical	...	व्यावहारिक एकांक
Unlimited	...	असीम
Unsaturated	...	अतृप्त
Unstable equilibrium	...	अस्थायी साम्य
Unsymmetrical	...	असममित
Upthrust	...	उत्क्षेप
Vacuum	...	शून्य
Vacuum-pump	...	शून्यकारक पम्प
Value	...	मूल्य
Value, calculated	...	गणनालब्ध मूल्य
Value, experimental	...	प्रयोगलब्ध मूल्य
Value, observed	...	अवलोकित मूल्य
Value, theoretical	...	सैद्धान्तिक मूल्य
Valve	...	वाह्व
Valve, ball—	...	गोलीमय वाह्व
Valve, diode	...	द्विध्रुवीय वाह्व
Valve, flap—	...	पटवाह्व
Valve, slide—	...	विसर्पी वाह्व
Valve, thermionic	...	तापायनिक वाह्व
Valve, triode	...	त्रिध्रुवीय वाह्व
Vane	...	पंख
Vaporisation	...	वाष्पीकरण
Vapour	...	वाष्प
Variable (quantity)	...	परिणाम्य

Variable motion	...	विषमगति
Variable star	...	परिणामनशील तारा
Variation	...	परिणामन
Vary	...	परिणत होना
Vary directly as	...	अनुक्रमानुपाती होना, अनुक्रमतः परिणत होना
Vary inversely as	...	उत्क्रमानुपाती होना, उत्क्रमतः परिणत होना
Varnish	...	वार्निश
Varnish (verb)	...	वार्निश करना
Varnish, shellac	...	चपड़े का वार्निश
Vector (noun)	...	दैशिक
Vector, radius	...	दैशिक त्रिज्या
Vectorial	...	दैशिकीय
Velocity	...	वेग
Velocity, angular	...	कोणीय वेग
Velocity, translational	...	स्थानान्तरीय वेग
Vena contracta	...	धार संकोच
Ventral segment	...	उन्नतोदर खंड
Venus	...	शुक्र
Verification	...	सत्यापन
Verify	...	सत्यापन करना
Vernier	...	वर्नियर
Vernier constant	...	वर्नियर का अल्पतम अंक
Vertical	...	ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वतन
Vertically	...	ऊर्ध्वाधर
Vertex	...	शीर्ष
Vibrating body	...	कम्पित वस्तु
Vibration	...	कम्पन
Vibration, damped	...	अपघ्नित कम्पन, क्रमोन कम्पन
Vibration, forced	...	प्रेरित कम्पन
Vibration, natural	...	स्वाभाविक कम्पन

Vibratory motion	...	कम्पन गति
Vibroscope	...	कम्पन दर्शक
Vice (workshop)	...	वाइस
View, field of	...	दृष्टिक्षेत्र
View-finder	...	दृश्य-अन्वेषक
Violet	...	बैंगनी, नीललोहित
Virial	...	वीर्यल
Virtual (image)	...	काल्पनिक, अवास्तविक
Virtual (current, etc.)	...	फलिता
Viscosity	...	सान्द्रता
Viscosity, coefficient of...	...	सांद्रता गुणक
Viscous	...	सान्द्र
Visible	...	दृष्टिगोचर
Vision	...	दृष्टि
Vision, direct	...	समक्ष दृष्टि
Vision, least distance of distinct—.	...	स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी
Visual	...	चाक्षुष
Visual angle	...	चक्षुःकोण
Vitreous electricity	...	कांचविद्युत्
Vitreous humour	...	सांद्ररस
Vocal chord	...	वाकतन्तु
Vocal sound	...	वाचिक शब्द, वाग्जात शब्द
Voice	...	वाणी
Volatile	...	वाष्पशील
Volatilisation	...	उड़ना, वाष्पीभवन
Volatilise	...	उड़ाना, वाष्पीभूत होना या करना
Volatility	...	वाष्पशीलता
Volt	...	वोल्ट
Voltaic	...	वोल्टीय
Voltaic couple	...	वोल्टीय युग्म
Voltaic pile	...	वोल्टीय पुंज

Voltage	...	विभवत्व
Voltage drop	...	विभवत्वपतन
Voltmeter	...	विद्युत् विच्छेद मापक
Volt-box	...	वोल्ट बक्स
Voltmeter	...	वोल्ट मापक
Voltmeter, electrostatic...	...	स्थिरविद्युत् वोल्टमापक
Voltmeter, multicellular	...	बहुकोष्टक, वोल्टमापक
Volume	...	आयतन
Volume, atomic	...	परमाणु आयतन
Volume elasticity	...	आनतन स्थापिकत्व
Volume, molecular	...	अणुक आयतन
Volume, specific	...	विशिष्ट आयतन
Volumenometer	...	आयतन मापक
Vortex	...	भंवर
Vulcanite	...	बलकेनाइट
Vulcanised	...	गंधकित
Wall (of tube)	...	भित्ति, दीवार
Warm	...	गरम, उष्ण
Watch, stop	...	विराम घड़ी
Water-equivalent	...	तुल्यजलांक
Water-hammer	...	जल हथौड़ा
Waterproof (noun)	...	जलजित्
Waterproof (verb)	...	जलजित् बनाना
Water-pump	...	जलपम्प
Water-tight	...	जलरोधक
Water-trap	...	जलकूट
Watt	...	वाट
Wattless	...	वाटहीन
Wattmeter	...	वाटमापक
Wave	...	तरंग
Wave, carrier	...	वाहक तरंग
Wave, complete	...	पूर्ण तरंग

Wave, longitudinal		अनुदैर्घ्य तरंग
Wave, progressive	...	प्रगतिशील तरंग
Wave, stationary	...	स्थावर तरंग
Wave, transverse	...	अनुप्रस्थ तरंग
Wave-front	...	तरंगाग्र
Wave-length	...	तरंग-दैर्घ्य
Wavelet	...	तरंगिका
Wave-surface	...	तरंग पृष्ठ
Wave-theory	...	तरंग सिद्धान्त
Wave-velocity	...	तरंग वेग
Wave-velocity, axis of single.		अद्वैत तरंगवेग का अक्ष
Wave-winding	...	तरंगित वेष्टन
Wave, series of	...	तरंग श्रेणी
Waves, system of	...	तरंग परम्परा
Wax	...	मोम
Weak	...	कमज़ोर
Weak solution	...	तनु विलयन
Wedge	...	टंक
Weighing, double	...	द्विस्तोलन
Weight	...	भार
Weight-box	...	बाटबक्स
Weights	...	बाट
Weld	...	गलाकर जोड़ना
Wheel	...	पहिया
Wheel, balance—	...	दोलन चक्र
Wheel, fly—	...	गतिपालक चक्र
Wheel, toothed	...	दांतदार पहिया, तन्दुर चक्र
Wheel and axle	...	चक्र धुरा
Whirling table	...	चाक
Whispering gallery	...	उपांशुवादी गुम्बद
Whistle	...	सीटी

White	...	श्वेत
White corpuscle	...	श्वेत रक्ताणु
White-heat	...	शुभ्रताप
White-hot	...	शुभ्रतप्त
Wind	...	पवन
Wind (verb)	...	लपेटना, वेष्टित करना, चाभी लगाना
Winding	...	वेष्टन
Windmill	...	पवन चक्की
Windpipe	...	श्वास नलिका
Wire	...	तार
Wire-gauze	...	जाली
Wiring (electrical)	...	तार लगाना
Work (dynamics)	...	कर्म
Work, external	...	वाह्य कर्म
Work, internal	...	आन्तर कर्म
Work, virtual	...	काल्पनिक कर्म
Working parts	...	क्रियाशील भाग
Worm (distillation)	...	सर्पिल नलिका
Worm (machine)	...	नागपेच
Worm-wheel	...	नाग चक्र
Yard	...	गज
Year	...	वर्ष
Yield	...	स्थितित्याग करना
Yield point	...	स्थिति त्यागविन्दु
Yellow	...	पीला
Yellow-spot (eye)	...	पीतविन्दु
Yoke	...	युग
Young's modulus	...	दैर्घ्यस्थापन गुणक यंग का मापांक
Zenith	...	शिरोविन्दु
Zeppelin	...	ज़ैपलिन
Zero	...	शून्य
Zero, absolute	...	परम शून्य



Zero-error	...	शून्य-भूल
Zero-correction	...	शून्य-संशोधन
Zodiac	...	राशिचक्रिय
Zodiac, signs of	...	राशि
Zodiacal light	...	राशिचक्र प्रकाश
Zone	...	कटिबंध, मेखला, मंडल
Zone-plate	...	मंडलपट्ट

# ERRATA

The Hindi equivalents of the following words have been incorrectly printed. The correct forms are given below.

Binocular, prismatic	...	त्रिपार्श्वीय द्विनेत्री दूरबीन
Biprism	...	द्विक त्रिपार्श्व
Cathetometer	...	ऊर्ध्वप्रमापक
Compass, prismatic	...	त्रिपार्श्वीय दिक् सूचक
Conservation	...	नित्यता; अविनाशिता; ध्रौव्य
Current, direct (D.C.)	...	सरलधारा ( स० धा० )
Current, eddy	...	चक्रधारा
Dial pattern	...	घट्युपम
Dielectric constant	...	वैद्युतांक
Eccentric	...	विकेन्द्र
Elongation	...	दैर्घ्यवृद्धि
Eye-ball	...	नेत्रगोलक; अक्षिगोल
Galvanometer, differential	...	भेददर्शक धारामापक
Head, torsion—	...	एंडन टोपी
Iron-core transformer	...	लोहगर्भ परिणामक
Jar, measuring	...	मापक जार
Lead	...	(१) सीसा (२) पुरस्सरण
Mains, underground	...	अन्तर्भूमि प्रमुखतार
Microscope, travelling	...	प्रमापक सूक्ष्मदर्शक
Minute	...	(Time) मिनट, (angle) कला
Motor, induction	...	उपपादन मोटर
Non-reactive	...	प्रतिक्रियाहीन
Phonic wheel	...	स्वरमापक चक्र
Photo-electric	...	प्रकाशवैद्युत

Photometer, grease-spot	स्निग्धास्पद दीप्तिमापक
Piezometer	... द्रव संपीड्यतामापक
Pneumatics	... वायवीय यंत्रविज्ञान
Positive	... धन; धनात्मक
Range, triple—	... त्रयावधि
Receiver (of a pump)	... शून्यागार
Spectrometer	... वर्णपटमापक
Subdivision	... प्रविभाग; प्रविभाजन
Suspension (particles)	... आस्रंसन
Travelling microscope	... प्रमाणक सूक्ष्मदर्शक
Volume elasticity	... आयतनस्थापकत्व
Wheel, toothed	... दांतदार पहिया; दन्तुर चक्र









